



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 478]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 1978/कार्तिक 5, 1900

No. 478]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 1978/KARTIKA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1978

का. आ. 618.(अ)—केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, निर्देश करती हैं कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइनों बिछाने के उपयोग का अधिकार, जिसके बारे में यह घोषित किया गया है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) की अधिसूचना संख्या 4(3)/76-के.डी.एम.(1), तारीख 25 अक्टूबर, 1978 द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा अर्जित किया गया था, केंद्रीय सरकार में निहित होने की बजाए राजपत्र में पूर्वोक्त घोषणा के प्रकाशन की तारीख के कर्तबमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड में निहित होगा।

**कुट्टेमुख लोह अयस्क परियोजना के लिए मलेश्वर (कुट्टेमुख) से ग्वा मंगलोर पोर्ट (पनाथूर) तक स्लरी पाइप लाइन बिछाने के लिए
अर्जित की जाने वाली भूमि की अनुसूची**

जिला : दक्षिण कन्नड़ा

तालुका का नाम : कारकला

ग्राम का नाम : 73 नूरलबेट्ट

क्रम सं०	क्षेत्र/सर्वेक्षण सं०	उप मंडल की सं०	उप मंडल का नाम	पंजीकृत धारक (पट्टेदार)	किरायेदार का नाम	अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा (एकड़ में)	अर्जित किये जाने वाले भूखण्डों का व्योरा	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	123	1	शुष्क	2781-91	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-			
2	188	1	"	45-39		-ए० डब्ल्यू०-			
3	188	3	"	0-23	देवराज अधिकारी	—	0-20		
4	70	4	उद्यान	0-18	51 लिगण्ण मुथा		0-10	सुपारी, नारियल कटहल के पेड़	
5	70	3	आर्द्र	4-36	51 लिगण्ण मुथा		0-63	"	
6	70	8	उद्यान	0-13	51 लिगण्ण मुथा		0-05	"	
7	70	5	"	0-43	लिगण्ण मुथा	बाबू मूरुया	0-08	ग्राम और नारियल	
8	70	7	आर्द्र	4-67	लिगण्ण मुथा		1-22	कटहल के पेड़	
9	71	3	"	2-67	10 अण्णु मारथा	नेमु शेड्डी	0-04	नारियल, कटहल और काजू	
10	71	5	आर्द्र	1-37	10 अण्णु मारथा	सीमय गौडा	0-60		
11	244	2	शुष्क	1-34	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-60		
12	244	1	"	2-06	"	"	0-48		
13	244	3	"	2-74	सीमय गौडा	सीमय गौडा	0-09	काजू कटहल और आम	
14	78	4	आर्द्र	0-84	नेमीराज अधिकारी	नेमीराज अधिकारी	0-40	नारियल	
15	78	5	"	0-27	चन्द्रनाथ देवस	करियण्णा	0-22		
16	78	7	"	0-26	10 अण्णु मारथा	करियण्णा	0-12		
17	78	8	"	0-73	देवराज अधिकारी	करियण्णा	0-65	सुपारी, नारियल, प्लाई-वुड, कटहल	
18	79	1	उद्यान	0-24	41 बोम्पी हेंगसु	करियण्णा	0-05	नारियल, सुपारी	
19	79	2	आर्द्र	1-60	41 बोम्पी हेंगसु	करियण्णा	0-22	"	
20	79	5	"	0-89	41 बोम्पी हेंगसु	करियण्णा	0-11		
21	169	3	शुष्क	0-07	देवराज अधिकारी	करियण्णा	0-07	सुपारी, प्लाई-वुड, काजू, आम, कटहल	
22	169	1	"	5-92	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-50		
23	122	2	"	817-25	"	-ए० डब्ल्यू०-	—		
24	49	5	आर्द्र	0-57	अण्णु मारथा	कमला	0-40		
25	49	3	"	0-75	अण्णु मारथा	कमला	0-10		
26	49	1	शुष्क	1-13	अण्णु मारथा	कमला	0-30	प्लाई-वुड, काजू के पेड़	
27	150	1 ए	"	1-96	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-18		
28	150	1 बी	"	0-63	पुष्पवति	गुन्नत कलराया	0-28		
29	150	2	"	0-06	गुन्नत शेड्डी		0-01		
30	48	3	आर्द्र	1-27	पुष्पवति	गुन्नत कलराया	0-50	नारियल के पेड़	
31	162	2	शुष्क	5-75	पुष्पवति	गुन्नत कलराया	0-85	काजू के पेड़	
32	162	1	"	1-72	रत्नमाल	गुन्नत कलराया	0-40	काजू के पेड़	
33	47	4	आर्द्र	0-09	पुष्पवति	गुन्नत कलराया	0-02		
34	47	2	आर्द्र	1-45	पुष्पवति	गुन्नत कलराया	0-80	नारियल, सुपारी	
35	47	1	"	2-24	पुष्पवति	गुन्नत कलराया	0-35	"	
36	163	—	शुष्क	5-45	पुष्पवति	गुन्नत कलराया	0-78	कटहल और काजू	
37	217	—	"	19-21	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-40		
38	213	1	"	0-08	"	-ए० डब्ल्यू०-	0-02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	213	2	शुष्क	0-06	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-01		
40	213	3	"	3-40	शुष्क भूमि	दीप नत्के	0-90		
					-ए० डब्ल्यू०-				
41	112	1	"	2-95	मारु बेबी	नेमीराज बंडारी	0-70	काजू के पीछे, बोगी के पेड़	
42	112	3	"	1-43	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-30		
43	112	2	"	2-12	नेमीराज हेगडे	सुन्दर मूल्या	0-95	काजू, बोगी के पीछे	
						नेमीराज पृथानी			
44	45	—	भार्द्र	3-15	नेमीराज हेगडे	सुन्दर मूल्या	0-15		
45	27	3	"	0-69	प्रह्लाद	चन्द्रय्य कोची	0-30	नारियल, काजू	
46	27	4	"	0-23	प्रह्लाद	चन्द्रय्य कोची	0-10	"	
47	27	2	उद्यान	0-57	प्रह्लाद	चन्द्रय्य कोची	0-12	"	
48	27	1	शुष्क	2-72	प्रह्लाद	चन्द्रय्य कोची	0-55	"	
49	122	1	"		सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-		"	

जिला : दक्षिण कन्नडा

तालुक का नाम : कारकला

ग्राम का नाम : 74 भाई० डी० यू०

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	167	0-09		
2	163	1	शुष्क	1-39	कारकला वेंकटरमण देवद	..	0-05	नारियल के पेड़	
3	106	1	भार्द्र	0-68	"	बूधा पूजारी	0-32		
4	106	2	"	0-60	गिरिजम्मा	"	0-30		
5	106	3	"	0-58	कारकला वेंकटरमण देवद		0-27	नारियल, सुपारी	
6	107	1	"	4-30	"	बूधा पूजारी	0-68	जंगली कटहल, आम	
..	मंजुनाथ कामत	..		
..	तंथा पूजारी			
7	132	1	शुष्क	2-73	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-70	काजू, जंगली कटहल	
8	132	2	"	2-04	वेंकटरमण देवद	मंजुनाथ कामत	0-75		
9	142		"	49-47	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	..		
10	190	1	"	4-92	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-55		
11	190	2	"	1-30	बोजम्मा	बोजम्मा	0-35		
12	256	1	"	2-88	बुर्गा परमेश्वरी		0-65		
13	105	3	भार्द्र	3-23	"	बाधू मूल्या, बुजा मूल्या	0-75		
14	105	6	उद्यान भार्द्र	0-35	बुर्गा परमेश्वरी		0-08		
15	295	2	शुष्क	4-15	बुर्गा परमेश्वरी		0-65		
16	295	3	"	0-31	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-20		
17	295	1	"	3-09	बेजम्मा	बेजम्मा	0-12		
18	267		"	4-00	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-40		
19	306	1	"	3-19	हरि भट्ट	हरि भट्ट	0-25	काजू के पीछे	
20	306	3ए	"	4-74	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	..		
21	136	..	"	47-06	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	..		
22	188	2	"	1-94	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-32		
23	188	4	"	1-38	हरि भट्ट	हरि भट्ट	0-15		
24	188	5	"	0-22	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	0-10		
25	188	6	"	0-72	काशी कालभैरवा	कृष्ण भट्ट	0-27		
26	8	8	भार्द्र	0-47	"	कृष्ण भट्ट	0-27		
27	8	9	"	2-78	"	कृष्ण भट्ट	0-80		
28	149	1	शुष्क	5-70	सरकारी भूमि	-ए० डब्ल्यू०-	1-50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	149	2	शुष्क	0-25	जगत्पल शेट्टी	जगत्पल शेट्टी	0-10		
30	11	3	भार्त	0-83	चेलुवम्मा	धर्मन मूल्या	0-05		
31	11	7	शुष्क	0-54	चेलुवम्मा		0-02		
32	5	1	भार्त	1-87	जगत्पल शेट्टी	जगत्पल शेट्टी	0-65		
33	5	2	"	0-69	जगत्पल शेट्टी	जगत्पल शेट्टी	0-17	नारियल का पीछा, केले के पेड़	
34	150	2	शुष्क	1-90	जगत्पल शेट्टी	जगत्पल शेट्टी	0-12	सुपारी	
35	150	3	"	"	जगत्पल शेट्टी	जगत्पल शेट्टी	0-05		

ग्राम : 72 नेल्लिकार—18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	4	भागायतु		0-27	57 कुसुमाजी		0-16		
"	5	परंबोके		0-87	बस्ती		0-08		
"	6 ए	शुष्क		0-62	-ए० डब्लीयू०-		0-24		
"	6 बी	"		0-06	57 कुसुमाजी		0-02		
"	8	"		2-93	57 कुसुमाजी		0-30		
214	---	"		82-06	-ए० डब्लीयू०-		0-54		
234	1	"		4-52	55 शिवदेवी/भ्रमन्तराज भाल्वा		0-76		
182	1	"		2-38	53 "		0-01		
70	1	भार्त		5-93	53 शिवदेवी भ्रमन्तराज भाल्वा	पद्मराज भाल्वा, काली, शेषपा, मूल्या	0-58		
"	2	"		4-76	93 शिव देवी	रत्नावति और भ्रम्य	0-80		
"	3	उद्यान		0-19	53 शिव देवी भ्रमन्तराज भाल्वा		0-01		
110	2	शुष्क		3-98	53 "		0-02		
"	3	"		0-85	47 नोनय्य पूजारी	नोनय्य पूजारी	0-03		
67	1	भार्त		0-33	36 महाबल	महाबल	0-06		
"	2 ए	"		0-60	36 "	"	0-31		
"	2 बी 1	भार्त		1-69	100 चेलुवान चेलुवम्मा	चेलुवम्मा	0-12		
"	4	परंबोके		0-77	तोडु (नैनेल)		0-02		
"	6 ए	भार्त		1-41	122 नोनू हेंगसु	नोनय्या	0-14		
"	6 बी	"		1-13	36 महाबल	महाबल	0-55		
"	6 सी	"		0-23	47 नोनय्य पूजारी	नोनय्या	0-13		
"	7	उद्यान		0-49	100 चेलुवान चेलुवम्मा	चेलुवम्मा	0-01		
169	2	शुष्क		3-95	123 "	चेलुवम्मा नोनू नोनू हेंगसु	0-66		
222	1 ए	"		2-85	83 यशस्वति		0-57		
39	"	"		2-51	83 "		0-83		
214	"	"		82-06	-ए० डब्लीयू०-		1-81		
40	1	भार्त		3-20	83 यशस्वति	जीबंदरा	0-66		
"	4	"		0-46	43 भ्रमन्तणी	झाकय्या	0-28		
"	5	"		0-49	83 यशस्वति	जीबंदरा	0-20		
"	7	उद्यान		0-17	83 भ्रमन्तणी	झाकय्या	0-03		
43	3	भार्त		2-62	43 भ्रमन्तणी	जीबंदरा	0-25		

जिला : दक्षिण कन्नड़ा
तालुक का नाम : कारकला
ग्राम का नाम : 72, मेस्लिकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42	2 ए	शुष्क	0-48	83 यशस्वति		0-03		
		2 बी	"	3-40	43 अम्मणी		0-81		
		2 सी	"	1-16	101 जैनवत्त शेटी	कूकानलि अण्णा	0-14		
	102	..	भार्द्र	3-98	101 "	कूकानलि अण्णा	0-85		
	49	3 ए	"	1-86	101 "	जीनवत्त शेटी	0-27		
	49	1	"	2-83	101 "	"	0-49		
	138	1	शुष्क	8-00	101 "	"	0-67		
	103	1	"	854-16	-ए. डब्ल्यू-		1-35		
	174	..	"	5-48	40 सोम ओडम्मा		0-43		
	237	1	"	0-71	40 "		0-40		
		2	"	3-23	103 आदिराज अजिला		0-01		
	58	1	भार्द्र	7-04	40 सोम ओडम्मा	कोरगडी और अन्य	0-16		
		2	"	0-71	40 सोम ओडम्मा	सीना पूजारी	0-22		
						और अन्य			
	57	1	भार्द्र	4-18	103 आदिराज अजिला	रबोते तनिया	0-15		
		2	"	0-97	103 "	"	0-30		
	236	..	शुष्क	3-66	103 "	"	0-52		
	228	6	"	3-84	-ए. डब्ल्यू-		0-67		
		2	"	0-93	"		0-03		
		3 ए	"	0-63	108 पुट्टम्मा	चन्नु पूजारी	0-25		
		3 बी	"	0-63	106 वासुदेव	"	0-25		
		4	"	0-80	34 रत्नावलि	कोरग मडिवाला	0-26		
		5	"	0-34	-ए. डब्ल्यू		0-06		
	229	1	"	1-44	107 परमेश्वरा	परमेश्वरा	0-58		
		2	"	1-06	6-ए. डब्ल्यू-		0-07		
	32	1	भार्द्र	1-36	107 परमेश्वरा	परमेश्वरा	0-05		
		2	"	0-87	291 के०एस० बिसल	कुछण भट्टा	0-37		
					बल्लाला				
		3	"	0-59	1 श्रीमति अम्मा	"	0-22		
		4	"	1-26	34 रत्नावलि	कोरग मडिवाला,	0-42		
						चिक्काम्या			
		5	"	1-92	24 "	"	1-15		
	215	..	शुष्क	36-91	-ए. डब्ल्यू-		0-16		
	31	2	भार्द्र	1-23	39 देवराज अजी	कूका पूजारी	0-01		
		6	भार्द्र	0-44	श्रीमति अम्मा	वाडू पूजारी	0-06		
		12	"	0-54	1 "	"	0-34		
	27	2	शुष्क	6-52	-ए. डब्ल्यू-		0-48		
	30	1	भार्द्र	6-22	34 रत्नावलि	कोकापूजारी और	1-02		
						अन्य			
		6	"	0-37	34 "	विश्ववर्मा हेगडे	0-08		
		7	उद्यान	0-38	34 "		0-18		
		8	भार्द्र	0-60	34 "	विश्ववर्मा हेगडे	0-20		
	175	1	परबोके	2-45	चरागाह		0-13		
	175	2	शुष्क	3-00	34 रत्नावलि		0-55		
	179	1	"	1-68	34 "		0-01		
		2	परबोके	5-95	चरागाह		0-72		
	262	1	शुष्क	4-60	-ए. डब्ल्यू-		0-40		
	103	1	शुष्क	854-16	"		0-62		
	262	2	"	3-30	बिशेष 25 नरसिंहगडे		0-94		
	76	1	"	0-86	104 जगत्पाल शेटी		0-28		

जिला : दक्षिण कन्नडा
तालुक का नाम : कारवार
ग्राम का नाम : सं० 70 बलपाडी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	188	13	शुष्क	2-42	नागराज शेड्डी		0-75		
2	122	2	शुष्क	0-66	—		0-36		
3	122	1	„	3-48	—		0-15		
4	122	3ए	पोरबोके	0-68	सोक निर्माण विभाग मार्ग		0-70		
5	20	5	भार्द्र III	1-57	नागराज शेड्डी		0-70		
6	20	4	„ III	4-06	डी० बीरेन्द्र हेगड़े		0-08		
7	185	1	उद्यान	0.38	नागराज शेड्डी		0-08		
8	185	2	शुष्क	0-12	डी० बीरेन्द्र हेगड़े		0-08		
9	20	6ए	भार्द्र III	0.33	नागराज शेड्डी		0-09		
10	20	6 बी	„ III	0-38	बलुबम्मा		0-23		
11	20	6 सी	„ III	3-98	„		0-90		
12	20	6 डी	„ III	0-28	„		0-02		
13	20	6 ई	„ III	0-44	नागराज शेड्डी		0-28		
14	195	4 ए	शुष्क	1-04	मौरिश सतु सीयूर		0-18		
15	195	5 ए	„	0-55	दुग्गु		0-28		
16	195	5 बी	„	0-76	थनियारु		0-23		
17	158	2	उद्यान	0-72	„		0-20		
18	239	6	शुष्क	0-27	नागराज शेड्डी		0-13		
19	19	2 बी	भार्द्र I	1-06	थनियारु		0-04		
20	19	1	„ I	0-45	नागराज शेड्डी		0-30		
21	139	1	शुष्क	0-90	थनियारु		0-60		
22	139	6	„	0-90	बागि		0-65		
23	30	1	भार्द्र I	0-24	हासन बेरी		0-09		
24	30	2	„ I	0-82	शिरताडी भर्जुनपुरा देवद		0-20		
25	115	„	उद्यान	1-88	डी० बीरेन्द्र हेगड़े		0-45		
26	299	„	शुष्क	6-20	—ए० डब्ल्यू—		1-30		
27	106	2	शुष्क	2-43	बागी हेगडु		0-99		
28	106	3	„	0-14	नागराज शेड्डी		0-01		
29	106	4	„				0-36		
30	212	2	„	2-79	—ए० डब्ल्यू—		0-04		
31	212	1	„	3-74	समेन रोड्दिकस		1-20		
32	212	3	„	2-39	जन्नप्प शेड्डी		0-75		
33	211	1	„	2-92	समेन रोड्दिकस		0-03		
34	211	2	„	2-33	—ए० डब्ल्यू—		0-20		
35	302	1	„	13-76	—ए० डब्ल्यू—		2-03		
36	38	1	भार्द्र III	2-69	डी० बीरेन्द्र हेगड़े		0.38		
37	38	2	भार्द्र I	2-87	—		0-60		
38	38	4	„ III	1-89	—		0-70		
39	132	1	शुष्क	229-82	—ए० डब्ल्यू—		1-21		
40	191	„	„	6-30	डी० बीरेन्द्र हेगड़े		0-41		
41	42	3	भार्द्र II	1-61	„		0-23		
42	42	4	„ II	0-11	चन्द्रावति		0-08		
43	43	1	पोरबोके	0-90	तोडू		0-20		
44	43	8	भार्द्र	1-61	डूजा मिंगले नजरत		0-75		
45	43	2	„ II	1-76	„		0-72		
46	43	3	„ II	5-13	डी० बीरेन्द्र हेगड़े		0-01		
47	269	4	शुष्क	1-10	ए०—डब्ल्यू—		0-08		
48	44	1	भार्द्र III	0-76	चन्द्रावति		0-38		
49	44	3					0-51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	269	1	शुष्क	5-24	चन्द्रावति		0-03		
51	269	3	,,	0-56	मुत्तक हेगडति		0-05		
52	163	..	,,	4-57	अपिहेगडति और अन्य		0-68		
53	44	2	आर्द्र II	3-43	अपिहेगडति		0-38		
54	172	..	शुष्क	321-81	-ए० डब्ल्यू-		0-99		
55	227	1ए	,,	0-20	,,		0-01		
56	232	3	,,	0-58	,,		0-15		
57	232	4	,,	1-02	मुत्तक हेगडति		0-54		
58	232	5	,,	1-18	वक्रपहेगडे और अन्य		0-23		
59	59	2	आर्द्र I	0-84	गुम्मड पूजारी		0-26		
60	59	1	,, I	1-00	भोनम्म अलियास		0-10		
61	59	10	पोरबोके	0-10	अपिहेगडति परे		0-04		
62	59	11	ए आर्द्र III	1-08	पद्महेगडे		0-18		
63	59	12	,, III	0-34	मोहम्मद अलियास अपिहेगडति		0-15		
64	55	..	शुष्क	4-08	-ए० डब्ल्यू-		0-55		
65	56	1	आर्द्र III	1-16	मुत्तक हेगडति		0-01		
66	58	2	,, III	2-38	कुमार शेदटी		0-02		
67	58	..	,, III	4-05	पद्महेगडे		0-01		
68	142	1	शुष्क	1-38	-ए० डब्ल्यू-		1-10		
69	107	..	,,	1-34	चन्द्रनाथ देवर		0-30		
70	253		शुष्क	8-50	-ए० डब्ल्यू-		0-30		
71	63	2	उद्यान	0-27	सुमलियम्म		0-06		
72	63	1	आर्द्र III	7-93	सुमलियम्म		1-36		
73	132	..	शुष्क	139-00	-ए० डब्ल्यू-		0-38		
74	86	1	आर्द्र II	19-58	डी० बीरेन्द्र हेगडे		1-88		
75	87	2 ए	शुष्क	38-23	-ए० डब्ल्यू-		2-50		
76	89	12	,,	0-32	अन्तोणी बिसौजा		0-28		
77	89	1	आर्द्र II	1-80	अन्तोणी सौजा		0-38		
78	89	9	उद्यान	0-29	अन्तोणी सौजा		0-08		
79	89	10	,,	0-21	अन्तोणी सौजा		0-01		
80	168	1	शुष्क	0-38	सुमलियम्मा		0-04		
81	168	2 ए	उद्यान	0-35	पेलिक्स एम० बिसौजा		0-28		
82	168	2 बी	आर्द्र III	0-27	,,		0-22		
83	90	1	,, I	1-59	सुमलियम्मा		0-04		
84	91	2	,, I	4-15	,,		0-95		
85	91	5	पोरबोके	0-14	लोट्टु		0-07		
86	92	2	आर्द्र III	1-00	पेलिक्स एम० बिसौजा		0-40		
87	155	..	उद्यान	1-61	,,		0-45		
88	182	1 ए	शुष्क	4-33	डी० बीरेन्द्र हेगडे		0-20		
89	182	2 बी	,,	1-32	करियुडु चेलुवम्मा		0-18		
90	98	1	,,	1-18	डी० बीरेन्द्र हेगडे		0-35		
91	98	2	आर्द्र	2-28	,,		0-30		

जिला : दक्षिण कन्नडा
तालुक का नाम : कारकला
ग्राम का नाम : वि० संख्या 80 मूडु कोनजे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	1	पोरबोकी	50-20	नदी		0-23		
2	99	..	गुणक	28-55	-ए० डब्लीयू-		1-68		
3	198	3 ए	..	0-20	..		0-04		
4	198	3 बी	..	2-80	चन्द्रकला भट्टा		0-60		
5	198	3 सी	..	2-82	सुबकर भट्टा		0-51		
6	99	28-55	-ए० डब्लीयू-		0-23		
7	156	1	..	4-96	वैकम्म शेट्टि		1-14		
8	156	2	..	4-44	-ए० डब्लीयू-		0-19		
9	80	2	..	0-87	वैकप्प केला		0-55		
10	80	1	..	1-35	-ए० डब्लीयू-		0-80		
11	38	2	भार्द्र I	0-63	वैकप्प केला		0-12		
12	38	1	.. I	2-09	अम्मणि शेट्टि		0-75		
13	102	..	गुणक	38-61	-ए० डब्लीयू-		0-01		
14	39	1	भार्द्र II	3-15	अम्मणि शेट्टि		0-87		
15	107	1	गुणक	5-08	-ए० डब्लीयू-		0-60		
16	46	4	भार्द्र III	0-87	राजू केला		0-24		
17	46	8 बी	उद्यान	0-43	राजू केला		0-20		
18	46	3	भार्द्र III	0-63	मुनम्मा बेवी		0-18		
19	46	15	भार्द्र III	0-81	अम्मणि शेट्टि		0-34		
20	46	1	भार्द्र III	1-15	पद्मावति		0-40		
21	46	2	गुणक	0-29	-ए० डब्लीयू-		0-12		
22	48	14 ए	भार्द्र III	2-40	राजू केला		0-10		
23	51	7	भार्द्र III	0-25	एम० वैकटेश भट्टा		0-24		
24	51	2	भार्द्र III	8-03	कांतु केला		0-86		
25	47	..	गुणक	15-90	-ए० डब्लीयू-		0-63		

जिला : दक्षिण कन्नडा
तालुक का नाम : कारकला
ग्राम का नाम : पडुकोनाजे सं० 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	31	3	पोरबोकी	0-89	तोडु		0-07		
2	31	2	भार्द्र I	0-88	नेमिराज कडंबेर		0-34		
					श्रीर ग्रन्थ				
3	31	1 ए	भार्द्र I	1-26	चन्द्र राज कडंबेर		0-41		
4	31	1 बी	भार्द्र I	2-50	नेमिराज कडंबेर		0-33		
5	30	1	भार्द्र I	6-14	सिद्धम्मा शेट्टि		1-15		
6	30	2	भार्द्र III	0-38	..		0-11		
7	78	1	गुणक III	582-80	-ए० डब्लीयू-		0-89		
8	83	7	..	0-81	खेना बीरा		0-22		
9	83	8	..	0-81	पुंकरा		0-03		
10	83	6	पोरबोकी	0-17	फुट-भात		0-04		
11	83	1 बी	गुणक	0-87	बिगा नायक		0-04		
12	83	2	..	0-89	बाबु नायक		0-21		
13	83	3	..	0-86	मेरा चीकरा		0-27		
14	83	4	..	0-84	गुडबा		0-26		
15	83	5	..	0-79	बीरा		0-26		
16	110	1 ए	..	1-45	एमिलियर फेलीन मेनेस		0-44		
17	110	1 बी	..	1-45	जिनराज हेगडे		0-17		
18	36	2 ए	भार्द्र III	0-25	..		0-02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	40	3 ए	शुष्क	1-09	गुणपाल हेगडे		1-12		
					श्रीर अन्य				
20	40	3 बी	3 बी	1-41	जिनराज हेगडे		0-12		
21	40	2	पोरंबोको	3-04	मार्ग		0-41		
22	40	1 सी	शुष्क	2-25	भर्गस राजहेगडे		0-32		
23	43	4 ए	भार्द्र III	3-00	बोजराज हेगडे		0-66		
24	43	4 बी 1	भार्द्र III	0-55	वीनि पस एस० मेनेजस]		0-20		
25	43	4 बी 2	भार्द्र III	3-04	लक्ष्मीमति		0-02		
26	42	7	भार्द्र III	3-76	नेमिराज केरला		0-90		
27	42	1 ए	भार्द्र II	2-72	नेमिराज केरला		0-91		
28	42	6	भार्द्र I	0-21	"		0-05		
29	99	—	शुष्क	5-72	—ए० डब्ल्यू—		0-43		
30	42	4	उद्यान	0-32	बरदय्य कामत श्रीर अन्य		0-05		
31	94	3	भार्द्र III	1-25	मंजप्य पूजारी		0-40		
32	94	4	शुष्क	0-49	—ए० डब्ल्यू—		0-33		
33	46	2	"	3-10	अप्पी घनियास पद्मावति		0-25		
34	46	1 बी	"	7-54	—ए० डब्ल्यू—		0-78		
35	46	10	"	0-26	आदक्का		0-17		
36	46	1 ए	"	1-22	सेरने, दूसरे हेगडु		0-07		
37	47	4	भार्द्र III	4-04	आदक्का, कांतु केरला		0-60		
38	92	3	शुष्क	4-20	कान्ता केरला		1-16		
39	92	2	शुष्क	1-78	बकप्य केरला		0-02		

जिला : दक्षिण कन्नडा]

तालुक का नाम : कारकला

ग्राम का नाम : कल्लबेट्ट, संख्या 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	1 ए 3]	शुष्क	3-28	कृष्णप्पा				
2	10	1 बी 1	"	1-07	कृष्णप्पा 1				
3	10	1 सी	"	0-07	—ए० डब्ल्यू—				
4	10	1 डी	"	1-07	कुंचप्पा				
5	10	1 ए 5 बी	"	2-00	बन्धु मेस्त्री				
6	10	1 ए 5 ए	"	6-08	—ए० डब्ल्यू—				
7	9	1	"	5-66	"				
8	9	2	"	11-62	" चरगाह				
9	3	1	"	15-18	—ए० डब्ल्यू—				
10	3	2	"	0-92	एम० के० हसनम्मा				
11	5	6	नंजा III	2-35	शिवदेवी	बाहुबलि प्रसाद			
12	5	1 ए	नंजा I	0-36	"				
13	4	1 बी	शुष्क	4-98	"				
14	35	14	नंजा I	0-20	गौरी शोड्ति				
15	32	—	शुष्क	3-47	—ए० डब्ल्यू—				
16	35	10	नंजा III	0-88	गौरी शोड्ति				
17	35	16	उद्यान	0-07	गौरी शोड्ति				
					"				
18	35	17	नंजा I	0-38	"				
19	35	11	उद्यान	0-61	"				
20	35	18	"	0-11	"				
21	35	20	नंजा I	0-46	"				
22	35	19	नंजा II	0-11	अधु शोड्ति				
23	35	4	नंजा I	0-47	रामण शोड्ति				
24	35	3	नंजा I	0-67	अधु शोड्ति				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	35	1	नंजा I	6-94	रामण शेट्टी और अन्य				
26	208	1	शुष्क	0-42	भारिराज शेट्टी				
27	52	3	उद्यान	0-17	चन्द्रमति भस्मा				
28	36	4	शुष्क	2-47	"				
29	54	2	नंजा III	2-80	मैयरे हेगडति				
30	54	2	नंजा III	2-09	कोरपीसू हेगडति				
31	60	1	नंजा III	5-10	अक्षमाला	शामा आचारी			
32	58	1	—	0-58	—ए० डब्ल्यू—चैनेल				
33	58	8	नंजा I	0-41	मैयरे हेगडति				
34	58	3	"	0-77	"				
35	64	5	"	0-88	एन० अहल्या	लिंगप्प देवडिया			
36	64	4	"	0-47	कृष्णम्मा	दादु पुजारी			
37	64	10	"	0-12	"	"			
38	64	11	"	0-09	अहल्या	शामा आचारी			
39	64	9	"	0-22	"	ऐतप्प पूजारी			
40	64	3	"	0-25	बिट्टप नायक	बूबा पूजारी			
41	64	8	"	0-11	अक्षमाला	ऐतप्प पूजारी			
42	64	7	"	0-37	बिट्टप नायक	बूबा पूजारी			
43	64	2	"	0-88	अक्षमाला	शामा आचारी			
44	64	1	"	0-72	वृषभसन्द	ऐतप्प पूजारी			
45	65	1	"	2-23	"				
46	65	3	—	0-44	ए० डब्ल्यू चैनेल				
47	67	2	नंजा I	3-46	बिट्टप नायक	बूबा पूजारी			
48	67	1	—	0-29	ए० डब्ल्यू चैनेल				
49	66	6	नंजा	1-49	कृष्णम्मा	चन्नु पूजारी			
50	66	5	"	1-19	एन० अहल्या	लिंगप्प देवडिया			
51	66	1 ए	"	1-61	गोपाल साधयान				
52	66	1 बी	"	1-55	कृष्णम्मा	दादु पूजारी			
53	208	2	शुष्क	3-13	बोगु शेट्टी	—			
54	127	1 ए	"	19-46	—ए० डब्ल्यू—	—			

जिला : दक्षिण कन्नडा

तालुक का नाम : कारकला

ग्राम का नाम : 67 कारजे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	201	1	शुष्क	4-34	के० लोहिवास, एम० कृष्णबाई		0-35	ग्राम के पेड़, कम्पकंड	कृष्ण
2	2	1	"	4-44	अण्णप्पया	—	0-01		
3	76	3 ए	"	0-08	"	—	0-01		
4	76	2	"	3-52	प्रमुख मार्ग-सी	—	0-20		
5	193	4 ए	"	0-07	मार्ग की सीमा	—	0-05		
6	123	1	"	1-80	शशिकला बाई	लोडु वैरस	0-48		
7	123	2	"	1-40	शारदा बाई और तारा बाई	"	0-48		
8	193	2	"	0-46 2-90	उमा सुन्दरी	मेरी डिसौज	0-08		
9	193	3	" आई	4-40 0-50	"	"	0-67		
10	106	1	शुष्क	3-40	"	"	0-23		

जिला : दक्षिण कन्नडा
तालुक का नाम : कारकला
ग्राम का नाम : 59 प्रोत्या

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100	2 ए	शुष्क	13-28	—ए० डब्ल्यू—	—	1-56		
2	100	2 बी	"	0-31	विशेष 121 जे० आर०वास		0-04		
3	100	1	"	1-80	1-95 मादुं कडतोस		0-09		
4	214	1	"	5-12	—ए० डब्ल्यू—		1-14		
5	209	1	"	2-20	45 एम० वेंकटराय मल्ल्या		0-65		
6	209	2 ए	"	2-72	पीटर डोना स्वरत	(ए० मं० निश्चित करमा है)	0-57		
7	209	2 बी	"	0-34	विशेष 121 जे० आर०वास		0-05		
8	172	—	"	3-86	45 एम० वेंकटराय मल्ल्या		0-01		
9	73	1 ए	"	1-90	—ए० डब्ल्यू—		0-31		
10	73	1 बी	"	3-74	56 पद्मावती मावति		1-11		
11	73	1 सी 1 ए	"	0-90	377, जि० शेकम्बा-1		0-09		
					अभूषणान-2				
12	76	2	आर्द्र III	2-44	मुत्तु हेंगसु		0-57		
13	76	1	आर्द्र III	2-26	103 युसुफ साहेब		0-06		
14	76	3	आर्द्र III	1-62	76 सि० एम० गोबीस		0-50		
					और डा० जि० गोबीस				
15	77	1	आर्द्र III	5-75	94 पद्मावती मोवति		0-72		
16	77	22	उद्यान	0-20	94 "		0-01		छप्पर छाना भर गोशाला
17	72	4	आर्द्र III	1-91	100 चेल्लम्मा, लक्ष्मण		0-36		
18	72	5	उद्यान	0-13	100 चेल्लम्मा "		0-02		
19	72	3 बी	पोरंबोको	0-24	तोडु		0-08		
20	72	2	आर्द्र III	0-46	56 पद्मावती मोवति		0-08		
21	72	1	आर्द्र III	0-33	94 "		0-28		
22	71	5 ए	आर्द्र III	6-70	39 मोनप्प पूजारी		1-43		
23	64	1 ए 1 ए	शुष्क	3-04	—ए० डब्ल्यू—		0-05		
24	64	1 ए 1 बी 1	"	1-44	"		0-14		
25	208	4	पोरंबोको	1-18	मार्ग		0-27		
26	208	1	शुष्क	1-25	68 बी०एम० राजाराम		0-05		
27	208	2	"	2-12	51 टि० बी० सेनिटोरियम		0-70		
					डायरेक्टर (निदेशक)				
28	208	3	"	0-88	80 पांडुरंग प्रभु		0-53		
29	113	—	"	6-47	390 गोपाल लक्ष्मण प्रभु		0-03		
30	63	102	"	1-66	80 पांडुरंग प्रभु		0-23		
31	180	1	"	2-98	80 "		0-01		
32	180	2	"	0-45	98 एलिजा डिसोजा		0-01		
33	63	3	"	0-19	390 गोपाल लक्ष्मण प्रभु		0-15		
34	131	"	"	7-30	393 जान डिसोजा		1-25		
35	204	1	"	0-15	393 "		0-03		
36	204	2 बी	पोरंबोको	2-70	चरगाह		1-20		
37	204	2 ए	शुष्क	2-93	महावीर विद्यावर्धक संघ, मूडबिदे		0-35		(काम्पाऊंड का दीवार)
38	227	2 ए	"	4-14	"		1-39		(विद्यार्थिनि निलय का एक भाग, भवन तथा काम्पाऊंड)
	227	2 बी	पोरंबोको	1-26	चरगाह				
39	227	1	पोरंबोको	1-25	मार्ग		0-14		
40	187	6	शुष्क	0-49	विशेष 60 धामोवर कामत		0-02		
41	64	1 ए 1 सी	"	2-60	3,17 पीटर रिचर्ड		0-60		

जिला : दक्षिण कन्नडा
तालुका का नाम : कारकला
ग्राम का नाम : 58 होसबेट्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	122	—	शुष्क	5-50	40 फ्रानसिस सौजा	ब्रिजेग पेरेस	0-36		
2	152	2डी 2	पोरंबोको	2-21	सरकारी मार्ग	—	0-09		
3	123	1ए	शुष्क	1-93	73 गोपालकृष्ण मल्ल और ब्रिगेग कासु बार्ड	—	0-07		
4	123	1बी	"	1-92	19 लूसी गोवास	—	0-74		
5	144	1बी	"	3-93	154 पांडुरंग मास्का	—	0-75		
6	84	1	"	2-20	149 अलेक्स पिटो	—	0-08		
7	144	2	"	4-75	154 पांडुरंग मल्ल	—	0-38		
8	203	6ए	"	2-69	—सरकारी ए० डब्ल्यू—	—	0-36		
9	203	6 सी	"	0-56	विशेष 49 नेमय्य पुजारी	—	0-06		
10	203	3	"	3-54	विशेष 24 संजीव पुजारी	—	0-75		
11	203	4	"	1-54	—सरकारी ए० डब्ल्यू—	—	0-30		
12	203	5	"	1-96	विशेष 25 किट्टप्प भास्कारी	—	0-33		
13	108	1	"	883-27	—सरकारी ए० डब्ल्यू—	—	2-10		

जिला : दक्षिण कन्नडा
तालुका का नाम : कारकला
ग्राम का नाम : 50 पुसिगे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	492	1	शुष्क	2-14	448 मोतिनरि डिसोजा	—	0-13		
2	492	2	"	2-60	विशेष 141 रैमंड थोस्ला	राइमंड रोस्ला	0-62		
3	491	1	"	5-00	304 चन्द्रहेंगमु	—	0-99		
4	491	2	"	1-02	308 एम० लक्ष्मण	—	0-09		
5	267	1बी	"	1-33	431 कारबिना डिसोजा	—	0-10		
6	267	1ए	"	—	—	—	0-35		
7	267	2ए 1	"	0-14	431 कारबिना डिसोजा	—	0-09		
8	267	3ए 1	"	0-11	431 "	—	0-08		
9	267	3बी	"	0-38	(सरकारी)	—	0-09		
10	267	3 सी	"	1-20	277 धर्मावति डेनि डिसोजा	—	0-14		
11	343	—	"	7-19	227 "	—	0-50		

जिला : दक्षिण कन्नडा
तालुका का नाम : कारकला
ग्राम का नाम : 55 तोडूर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	152	3	शुष्क	8-91	11 श्री कुशमाविनी	विठ्ठल शेट्टी	2-01		
2	128	3	"	5-75	11 "	बोडुभ्य शेट्टी	1-20		
3	151	—	"	3-40	49 लिंगु हेंगसु	—	0-10		
4	123	1	"	5-61	—सरकारी ए० डब्ल्यू—	—	1-05	0-05 प्रस्तावित गृह निर्माण स्थान के लिए	
5	115	1	"	5-58	69 कतिजाबी	—	0-39		
6	36	1	भार्त III	8-31	69 "	—	0-90		
7	41	—	शुष्क	15-22	—सरकारी ए० डब्ल्यू—	—	0-48... ए० डब्ल्यू		
8	40	3	उद्यान	0-50	62 एम० ए० अम्बुल खावर आदि	—	0-05		
9	40	2	भार्त III	7-62	62 "	—	1-90		
10	42	4	भार्त I	1-67	11 श्री कुशमाविनी	कुशा सपलिंगा	0-90		
11	48	10	पोरंबोको	0-82	सरकारी	—	0-01... तोडूर		
12	42	3	भार्त I	1-15	42 डा० वेणुगोपाल शेट्टी	राजू भड्डाला	0-27		
13	42	2	भार्त I	0-82	12 तोडो कोट्टमटिया	बरा शेट्टी जस्टी	0-38		
14	48	1	पोरंबोको	1-13	(सरकारी)	—	0-11... तोडूर		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	48	2	आर्द्र I	1-89	42 डा० वेणुगोपाल शेट्टी	रक्तु सङ्गति	0-30		
16	48	5	आर्द्र III	34-58	78 "	—	0-02		
17	48	20	उद्यान	0-23	42 "	—	0-02		
18	48	3	आर्द्र I	0-448	75 "	—	0-02		
19	48	21	शुष्क	0-95	42 "	—	0-37	छप्पर छाना घर	
20	48	1	आर्द्र III	3-7	42 "	कुजार के० नारायण शेट्टी	1-43		
21	49	8	आर्द्र II	1-49	42 "	" और प्र० हरिजन	0-10		
22	49	5	पोरबोको	1-20	(सरकारी तोड़)	—	0-06		
23	56	3	आर्द्र III	3-12	74 रामण विम्वक सुवर्ण	गिरिजा पूजारी	0-24		
24	56	1	पोरबोको	0-56	(सरकारी तोड़)	—	0-18 तोड़	
25	55	2	आर्द्र I	0-35	74 रामण विम्वक सुवर्ण	गिरिजा पूजारी	0-24		
26	57	8	पोरबोको	1-38	(सरकारी तोड़)	—	0-18 तोड़	
27	58	4	आर्द्र I	0-64	36 नक्कु शेड्डी राजु शेड्डी	नक्कु शेड्डी	0-46		
28	55	3	आर्द्र I	0-49	74 रामण विम्वक सुवर्ण	अणु गौड़ा	0-11		
29	58	3	" I	0-72	79 गिरिजा शेड्डी नारायण शेड्डी	गिरिजा शेड्डी	0-33		
30	58	7	आर्द्र I	0-92	36 नक्कु शेड्डी राजु शेड्डी	कलनि शेड्डी	0-16		
31	58	9	" I	1-19	79 गिरिजा शेड्डी नारायण शेड्डी	गिरिजा शेड्डी	0-69		
32	58	4	आर्द्र III	5-42	80 डा० वेणु शेड्डी और दो व्यक्ति	गिरिजा और अन्य	0-05		
33	25	1	" I	1-31	4 तिममण शेड्डी कल्याणि शेड्डी	कल्याणि शेड्डी	0-75		
34	25	5	उद्यान	1-10	4 "	"	0-04		
35	25	2	आर्द्र I	0-91	4 "	"	0-12		
36	24	9	"	0-65	9 ए० डी० रामण शेड्डी और अन्य	रामणशेड्डी और अन्य	0-08		
37	24	8	आर्द्र I	6-20	9 ए० डी० रामण शेड्डी और अन्य	—	1-05		
38	24	5	शुष्क	0-74	9 "	—	0-52		
39	24	2	आर्द्र III	9-73		—	0-67		
40	106	—	शुष्क	48-35	(सरकारी ए० डब्ल्यू)	—	1-86 ए० डब्ल्यू	
41	20	—	"	1-10	" "	—	0-30 ए० डब्ल्यू	
42	153	2	"	1-80	9 रामण शेड्डी	—	0-26		
43	153	4	"	0-70	3 मखालिन संतोष बाई	—	0-26		
44	153	4	"	2-35	52 गैस्टिना तसिस मखालिना संतोष बाई	—	0-54		
45	21	4	आर्द्र I	0-12	3 मखालिन संतोष बाई	—	0-08		
46	21	3 बी	उद्यान	0-81	3 "	—	0-13		
47	21	5	"	0-42	3 "	—	0-35		
48	21	1	अर्द्र III	0-20	3 "	—	0-17		
49	17	1	शुष्क	15-60	(सरकारी ए० डब्ल्यू)	—	0-09 ए० डब्ल्यू	
50	18	1	"	3-52	विशेष 19 रेकु देवी	—	1-65		
51	18	2	"	12-48	(सरकारी चरगाह)	—	0-19 चरगाह	
52	19	—	"	7-56	(सरकारी ए० डब्ल्यू)	—	0-45 ए० डब्ल्यू	
53	193	4	"	1-01	(" ")	—	0-54 ए० डब्ल्यू	
54	193	3	शुष्क	2-34	विशेष 52 रमंड डिसोजा	—	0-29	पम्प हाऊस कुआ	

जिला : दक्षिण कन्नडा
 तालुक का नाम : कारकला
 ग्राम का नाम : तेंकमिजर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	293	1	—	130-43	ए०एम० कुंति	—		3 खपरे के घरों में अन्न- धिकार प्रवेश
2	83	—	शुष्क	7-06	गौरी जनार्दन आचार आदि	—	1-48	धान का खेत-नारियल, के पीछे आदि
3	87	1	आर्द्र I	0-82	लूईस मेंडोर्स-7 सदस्य	—	0-16	धान का खेत, सुपारी कोको आदि
4	87	2	„ I	0-71	हेच० विट्टल पै आदि	—	0-28	„ कोको के पीछे
5	88	7	„ I	2-75	„	—	1-32	„ „ टैंक
6	335	3	—	62-91	—ए० डब्ल्यू—	—	0-40	
7	298	2	शुष्क	1-82	जेथम्म हेंगसर	—	0-52	काजू के पीछे— छप्पर छाना घर
8	298	1	„	0-68	अम्मू गोडा	—	0-45	„ और धान का खेत
9	298	4	„	2-56	कोरेग्या गोडा	—	0-04	ग्राम के पेड़
10	298	3	पोरंबोको	0-02	मार्ग	—	0-02	मार्ग
11	139	4	पोरंबोको	0-19	—ए० डब्ल्यू—	—	8-02	
12	143	—	शुष्क	8-34	बेनेडिक्ट रीडिगेस	—	0-94	काजू, कटहल आदि
13	142	—	„	64-75	मूडबिरे कृष्णमंत्य मठ	सहर रीडिगेरीस	0-82	काजू, धान का खेत कटहल के पेड़ और खपरे का घर
							1-60	नारियल
14	90	—	„	8-08	सेरुक्कि जान डिसौजा	—	0-69	„
15	198	—	„	6-17	कुमुदा राजलुंगा	कोलेगा-शट्टिगर	0-89	„
16	110	1	„	3-18	मारकर डिसौजा	—	0-10	काजू
17	110	3	„	3-58	जीवन डिसौजा	—	0-82	„
18	110	2	—	2-00	ए० डब्ल्यू—	—	0-60	
19	171	2	—	3-46	—ए० डब्ल्यू—	—	0-40	
20	166	1	—	268-44	—ए० डब्ल्यू—	—	8-50	
21	156	1	—	13-75	„	—	2-25	
22	291	—	शुष्क	4-33	विडिसौजा और जिबी डिसौजा	—	0-91	काजू
23	196	—	„	4-29	„	—	0-76	
24	197	—	„	6-24	के० वेकण्णय्या	—	0-11	
25	118	1	„	4-20	शंकु भंडारी	—	0-88	काजू, ग्राम के पेड़
26	118	2	उद्यान	0-19	शंकु भंडारी	—	0-07	कटहल के पेड़
27	24	15	आर्द्र III	0-54	शंकु भंडारी	—	0-40	धान का खेत, काजू
28	24	7	„ III	2-43	शंकु भंडारी	—	0-03	छप्पर छाना घर, कटहल के पेड़
29	24	2	„ I	12-68	शंकु भंडारी	—	0-04	धान का खेत
30	24	3	„ I	1-32	—	—	0-02	
31	321	1	—	11-20	ए० डब्ल्यू कुंकी	—	0-03	
32	23	8	आर्द्र III	1-06	पार्श्वनाथ मंदिर	सिगम्मा शेट्टि	0-27	धान का खेत
33	23	1	आर्द्र III	1-65	„	„	0-66	छप्पर छाना घर
34	23	5	„ I	2-37	„	„	0-06	„
35	23	4	„ III	0-87	„	„	0-14	„
36	23	7	रंबोको	0-32	पोरंबोको लोडु	—	0-10	„
37	20	4	आर्द्र III	1-08	जम्कु भंडारी	—	0-48	„
38	20	1	आर्द्र I	1-30	„	—	0-20	„
39	21	16	„ I	1-21	के० लोलावर्ति शेट्टि	—	0-30	„
40	21	15	शुष्क	0-06	„	—	0-05	कोको के पेड़
41	21	17	उद्यान	0-30	„	—	0-04	ग्राम, कटहल और कोको के पेड़

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	21	10		2-37	पोरबोको तोड़	—	0-15		
43	155	2	उद्यान	0-37	के० लीलावति शक्ति	—	0-01	खाली	
44	155	1 ए		17-58	डि० डब्ल्यू० कुंति	—	1-50		
45	113	1	शुष्क	3-84	डा० संतोष कुमार	—	0-11	कोको भादि	
46	272	8 ए	"	0-06	विश्वमूर्ति मंदिर	—	0-04	मार्ग	
47	272	8 बी	"	0-44	पोबुरा	—	0-10	पक्का घर	
48	272	9 बी I	"	0-14	परमेश्वर नायक	—	0-13	कोको, आम, कटहल के पेड़	
49	272	9 बी 2	"	0-15	विष्णु मंदिर	—	0-15	मार्ग	
50	272	9 बी 2	"	0-13	परमेश्वर नायक	—	0-18	खपरे का पक्का घर	
51	272	10	पोरबोको	0-08	ए० डब्ल्यू० मार्ग	—	0-05		
52	272	9 ए		0-05	पोरबोको मार्ग	—	0-08		
53	272	11	शुष्क	0-63	परमेश्वर नायक	—	0-04	कोको, कुआं भादि	
54	13	2	"	0-18	विश्वमूर्ति मंदिर	—	0-18	मार्ग	
55	13	1	"	1-44	सुन्दरी धम्मा	—	0-19	कोको के पीछे	
56	13	3	"	0-13	"	—	0-12	"	
57	185	1 ए 1	"	5-00	"	—	0-42	"	
58	185	1 ए 1	"	0-38	विश्वमूर्ति मंदिर	—	0-38	मार्ग	
59	185	1 ए 3	"	5-69	सुन्दरी धम्मा	—	0-46	नारियल के पीछे भादि	
60	185	1 ए 4	"	0-06	विश्वमूर्ति मंदिर	—	0-06	मार्ग	
61	185	1 बी	"	0-29	को-आपरेटिव सोसाइटी मयस	—	0-18	खपरे के घर भादि	
62	112	ए 2	"	0-57	गोपाल कृष्ण वै भादि 3 सदस्य	—	0-08	घर भादि, पक्का खपरे का होटल	
63	112	ए 1 सी		6-75	पोरबोको मार्ग	—	0-48		
64	119	3	शुष्क	0-49	एम०ए० सिक्क	—	0-01	नारियल के पेड़	
65	119	16	"	0-48	सयब भालि जेयरी	—	0-15	खपरे के पक्का घर 4	
66	119	16	"	0-30	पापम्प बीरति	—	0-18	"	
67	119	5	"	0-50	मार्ग बेयरी	—	0-16	नारियल के पीछे	
68	119	6	"	0-50	सयब भालि बेयरी	—	0-12	नारियल के पीछे, खपरे का घर	
69	119	17		0-35	ए० डब्ल्यू० मार्ग	—	0-20		
70	119	18	शुष्क	0-18	मोहविन बेयरी	—	0-07	कोको के पेड़, खपरे के घर	
71	285	1 ए	"	1-08	गोपाल नायक	—	0-03	खपरे के घर	
72	285	1 ई	"	2-06	कीतप्प नायक	—	0-68	हंट का कुआं और खाली स्थान	
73	285	1 सी	"	1-08	सिंगप्प गौडा	—	0-56	काजू के पीछे और अन्य	
74	285	1 एफ	"	0-96	वाइलि बाई	—	0-56	काजू के पीछे	
75	285	18	"	0-32	ए० डब्ल्यू० मार्ग	—	0-02	"	

जिला : दक्षिण कन्नडा

तालुक का नाम : मंगलौर

ग्राम का नाम : कोम्पन्न

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	153	1	शुष्क	0-49	73 बसप्पा भयेरा	बसप्पा भयेवरे	0-22	2 नारियल के पेड़, 3 कटहल, 5 काजू के पेड़	
2	77	6	उद्यान	1-29	73 "	बसप्पा भयेरा	0-23	काजू के पेड़	
3	77	7	शुष्क	0-07	74 शंकर नारायण मोल्ला	गोरम्मा वैफ भाफ नारायण	0-07	काजू के पेड़	
4	77	1	"	3-25	74 "	"	0-21	सकड़ी (फायरउड)	
5	71	2	"	4-61	13 तिमार्जु हेंगु	तिम्माजु वफ भाफ ए० टि० कावे	1-20	काजू और सकड़ी (फायरउड)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	71	1	शुष्क	2-24	13	हेंगसु	सिम्माजु वफ आफ ए०टि० कावे	0-65	काजू और पेड़ (फायरवुड)
7	29	2	भार्द्र II	2-24	14	सुधाकर बेंकट राव	"	0-30	सुपारी के पेड़ 25
8	77	4	शुष्क	0-30	240	रमा बाई	रमा बाई बेंक आफ कोरगा	1-10	काजू का बगीचा
9	121	1	"	1-30	141	सीतु अलिथास तुंगम्मा	लिंगप्प गौडा	1-25	(1) छप्पर छाना घर, कुंभा और छप्पर, कटहल के पेड़-2, ग्राम के पेड़-1 हमली के पेड़-3, नारियल-3, कटहल के पीछे-1, केले का बाग
10	30	6 बी	भार्द्र I	0-37	1	कृष्णय्य शानुबोग	ए० जि० शानुबोग	0-03	धान का खेत
11	30	10	भार्द्र I	0-38		देवण भट्ट	नारायण गौडा	0-01	"
12	30	6 ए	भार्द्र I	0-26		ए० जी० शानुबोग	सीतम्मा और तम्पणा	0-02	"
13	30	1		0-02		नारायणय्यप्पा	बालचन्द्र	0-02	खाली स्थान
14	30	9	उद्यान	0-02		रामप्प नीलकंठ	रामप्प	0-02	नारियल के पेड़-2
15	30	6	"	0-03		कृष्णय्य शानुबोग	सीतम्पणा, तम्पणा	0-03	कटहल के पेड़-3
16	30	7	भागायत	0-06		ए० जि० शानुबोग	"	0-03	नारियल-3, ग्राम-2 (पेड़)
17	30	5	भार्द्र I	0-19		रामप्प और नीलकंठा	गोपाल सन आफ नारायण	0-05	धान का खेत
18	30	4	भार्द्र I	0-31		अनंतगोपाल शानुबोग	सीतम्मा और तम्पणा	0-12	"
19	30	3	भार्द्र I	0-38		रामप्प और नीलकंठा	गोपाल गौडा	0-16	"
20	30	2	भार्द्र I	0-44		पुट्टण और तम्मा शानुबोग	सीतम्मा तम्पणा	0-21	"
21	30	11	उद्यान	0-05		रामप्पा और नीलकंठा	रामप्पा	0-01	कटहल का पेड़ 1
22	32	2	भार्द्र II	1-26		भीमराज, मुजरज (रुक्मिणि)	बामन शानुबोग	0-42	धान का खेत
23	32	1	भार्द्र I	1-00		विश्वनाथ और शंकर	विश्वनाथ और शंकर	0-25	"
24	34	30	भार्द्र II	1-18		अप्पु गौडा	अप्पुगौडा	0-17	और नारियल-2
25	34	29	भार्द्र I	0-93		पुट्टण शानुबोग और अन्य	पुट्टुगौडा, ए० जि० शानुबोग	0-10	"-1, "-4
26	253	2	उद्यान	0-75		विश्वनाथ और अन्य	विश्वनाथ और अन्य	0-40	पंप हाउस, खपरे का आवास गृह, छप्पर छाना शीश, कटहल का पेड़
27	253	5	"	0-45		रामप्पा]	रामप्पा]	0-05	छप्पर बिछाया आवास गृह
28	253	3	"	0-10		विश्वनाथ और अन्य	विश्वनाथ और अन्य	0-10	कटहल के पेड़-2
29	253	1	"	0-06		विश्वनाथ शंकर और अन्य	विश्वनाथ शंकर	0-06	कुंभा-1
30	35	6	भार्द्र III	0-12		विश्वनाथ, शंकर	" "	0-09	पानी का टैंक, नारियल के पेड़ 6
31	35	2	भार्द्र III	1-18		" "	" "	0-40	धान का खेत
32	35	4	उद्यान	0-09		" "	" "	0-05	कटहल के पेड़-2
33	252	1	"	0-22		विश्वनाथ और अन्य	विश्वनाथ और अन्य	0-22	" -2
34	252	2	शुष्क	7-23		"	"	1-05	पेड़ (लकड़ी)
35	251	1	"	5-21		एम०एस० शेट्टी	एम०एस० शेट्टी	1-10	" , काजू के पीछे
36	95	2	"	4-89		श्रीनिवास बल्लाल, एम०एस० शेट्टी, अप्पु गौडा	गंगरक नायक, एम०एस० शेट्टी, अप्पु गौडा	1-125	" , काजू के पेड़-2
37	162	—	"	4-52		अम्मु गौडा, शेषप्प गौडा]	अम्मु गौडा, शेषप्प गौडा	0-50	काजू के पेड़-2
38	254	1	"	0-94		शेषप्प गौडा, अप्पु गौडा और अन्य	शेषप्प गौडा, अप्पु गौडा, एम०एस० शेट्टी अम्मु गौडा	0-15	पेड़ (लकड़ी)
39	195	2	शुष्क	9-25		रोबर्ट डि० फरनाडिस	रोबर्ट डि० फरनाडिस	0-06	काजू के पीछे पेड़-5

कुत्रेमुख लोह अयस्क परियोजना के लिए सजरी पाइप लाइन बिछाने के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की अनुसूची

जिला : दक्षिण कन्नड़ा

तालुक : मंगलौर

ग्राम : 41 पञ्चपेरार

क्रम सं०	सर्वेक्षण उप-मण्डल की संख्या	कुल विस्तार	किसान स्पष्टीकरण	पंजीकृत धारक का नाम	किरायेदार का नाम	प्राप्ताधिकृत विस्तार	सुझार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4-1	1-43		सयब हसन साहिब गुरुकम्ला	—	0-50		
2	4-2	3-06		अब्दुल खार साहिब कोरकम्ला	—	0-04		
3	96-2	11-86		(ए) लूयीस डिसीजा (बी) फ्रान्सिस डिसीजा (सी) जेरोम डिसीजा 2एवलि पिटो बाई भड़कवाली 3 अम्बास साहिब और 9 अन्य	मल्लिकान-साहिब कोरकम्ला	0-01		
4	96-3	0-80		सईब हसन साहिब गुरुकम्ला		0-30		
5	121-8ए	2-48		कुरुसुमबाई	1. मल्लिकान 2 अम्बास 3 उसमान खान	0-24		
6	161-2बी	4-98		शेक यूसुफ और 2 अन्य	नागम्म बाई बफयाफ प्रपण गौडा	0-70	2 कटहल के पेड़ 6 आम के पेड़ 25 काजू के पेड़ और जंगली पेड़ (फायरवुड)	
7	113-1	9-78		फ्रांक ए० फेरनांडिस		0-48	2 आम और 4 काजू के पेड़	
8	113-2	0-43		पोरबोक मार्ग		0-04		
9	113-3ए	1-76		माया फेरनांडिस	डेगो रेगो	0-43	3 काजू के पेड़	
10	112-1	0-41		बूजे (ए) पिलिप डिसीजा		0-01		
11	112-2	0-18		पोरबोक मार्ग		0-01		
12	112-3	2-56		बूजे (ए) पिलिप डिसीजा		0-50	10 काजू के पौधे	
13	148-1ए 1	8-46		माया फेरनांडिस		0-26	10 "	
14	153	9-60		"	अप्पु गौडा, अलेक्स डिसीजा, फ्रान्सिस पिटो, परकास पिटो, सेबास्टिन पिटो	0-40 2-95	5 "	
15	182	7-57		माया फेरनांडिस		0-47		
16	181	7-54		"		1-10		
17	207-1	1-68		मरिया पूजति		0-04		
18	207-2	4-80		नारायण शेटी चंडय्य शेटी	जारम्प सपलिंगा	1-75		
19	207-3	2-65		माया फेरनांडिस		0-37		
20	98-2सी 3	2-30		ए० डब्ल्यू भूमि		0-10		
21	44-1	0-37		नारायण शेटी चंडय्य शेटी				
22	44-4ए	2-58		नारायण शेटी चंडय्य शेटी	जारम्प सपलिंगा			
23	42-8सी	0-94		शेषाप्प शेटी और 2 अन्य		0-30		
24	45-1	1-13		ए० डब्ल्यू भूमि		0-02		
25	45-15	1-78		परमेश्वरी	सोमके	0-45		
26	45-2	0-15		शरबु गणपति	कोरग शेटी	0-07		
27	45-11	0-13		परमेश्वरी	सोमके	0-13		
28	45-16	0-27		शरबु गणपति	कोरग शेटी	0-15		
29	45-13	0-18		कृष्ण हेगसु	जलज शेटी	0-01		
30	46-2ए	0-27				0-22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	41-2	1-14	मोहन राध	राम शिवना	0-42			
32	41-1	1-09	करगिक हनुमंता	सोमप्य शेटी	0-23			
33	46-2बी	0-43			0-12			
34	39-1	4-12	पोरबोक नवी		0-15			
35	38-2	1-58	सुजाय भट्ट		0-33	{ 4 सुपारी, 11 नारियल, 1 कटहल, 4 फलमरा पौछे, 3 नारियल के पौछे		
36	38-3	0-43	सुजाय भट्ट		0-04	{ घर का 1 भाग, 1 नारि- यल, 3 सुपारी, 1 नारि- यल का पौछा, 3 सुपारी के पौछे, 1 कुंभा		
37	38-7	1-23	सुजाय भट्ट		0-35			
38	38-8	0-52	"		0-03	1 हौसी मरा (हौसी का पेड़)		
39	38-952	0-15	रामचन्द्र भट्ट	बि० बाबा गौडा सन भाफ अप्पु गौडा	0-01			
40	38-9बी]	0-54	श्रीनिवास भट्ट	कोरग भंडारी	0-42	1 आम का पेड़		
41	36-1	1-00	सुजाय भट्ट		0-04			
42	38-10ए 2	0-22	रामचन्द्र भट्ट	बी० बाबा गौडा	0-02	1 पालमरा पेड़		
43	38-10बी	0-75	श्रीनिवास भट्ट	कोरग भंडारी	0-54	{ 1 नारियल, 2 कटहल, 1 काजू, 1 इमली, 2 कोको के पौछे		
44	222-1	0-38	श्रीनिवास भट्ट	कोरग भंडारी	0-07	{ 1 जंगली कटहल, 1 कटहल का पेड़, 2 काजू, 1 आम का पौछा, घर का भाग		
45	222-2ए	0-38	रामकृष्ण भट्ट	लक्ष्मी अम्मा	0-29	{ 7 कटहल, 2 आम, 1 जंगली कटहल, 4 जंगली लकड़ी		
46	222-3ए	0-24	रामकृष्ण भट्ट	लक्ष्मी अम्मा	0-18			
47	222-4ए	0-60	"	" "	0-32			
48	36-6ए	0-32	"	सिद्ध गौडा	0-16			
49	36-6सी	0-24	"	ए और बी बाबा गौडा	0-06	{ 1 खपरे का गोशाला का भाग और घर का भाग		
50	36-6बी	0-20	"	ए० बाबा गौडा	0-13			
51	222-4बी	1-18	श्रीनिवास भट्ट	पराग भंडारी	0-02			
52	152-3ए	2-78	श्रीधर भट्ट	सिद्ध गौडा	0-06			
53	152-3बी	1-68	रामकृष्ण भट्ट	लक्ष्मी अम्मा	0-22			
54	185-1	0-50	"	"	0-10			
55	222-2बी	1-87	श्रीनिवास भट्ट	कोरग भंडारी	0-45	{ 1 कटहल, 2 आम, 1 पालमरा, जंगली लकड़ी		
56	185-2	20-16	राबर्ट ए० फेरनाडिस	मग्नेलिन कुबेलो	2-05	जंगली लकड़ी, 4 किरल बोसी		
				सीमा शेटी	0-65	4 जंगली कटहल, 2 आम के पेड़		
57	186	16-88	राबर्ट ए० फेरनाडिस	सीमा शेटी	2-50	{ 4 जंगली कटहल, 42 काजू के पेड़, 2 आम, जंगली लकड़ी		
				पाउल बास	1-00	6 काजू के पेड़, जंगली लकड़ी		
58	187	8-00	राबर्ट ए० फेरनाडिस	पाउल बास	1-75	{ 24 काजू के पेड़, जंगली लकड़ी		

जिला : : दक्षिण कन्नड़ा
 तालुक का नाम : मंगलूर
 ग्राम का नाम : बच्चपे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2-7	भार्त	0-70	दुग्गम्म हेंगसु	रामण्ण भाल्वा	0-21	धान का खेत	
	-5	"	0-78	बेंकटेश शोद्	बिठ्ठल शेट्टी	0-03	"	
	-3	"	6-17	अभ्युत शोद्	सुशीला भाल्वा	0-22	"	
	37-6	"	1-07	बेंकम्मा और अन्य	मोनक्के हेंगसु (नियो- जक)	0-45	"	
	-5	"	0-75	अभ्युत शोद्	जेन्नप्प सुवर्ण	0-07	"	
	-3	"	2-21	गिरिजा हेंगसु पडे	"	0-37	"	
	-4ए		0-05	रामचन्द्र शोद् और अभ्युत		0-05	1 खपरे का घर	
	-4बी		0-32	"	"	0-13	धान का खेत	
	38-4		0-51	परमेश्वरी शोद्धति	भारायण शेट्टी	0-15	100 बुपा के पेड़, 1 इसली का पेड़	
	-7		0-28	लजु शोद्धति	"	0-12	6 आम के पेड़, जलाने का (फायरवुड) पेड़ 1 पालमरा, 1 सागौन का पेड़	
	38-6	भार्त	1-40	लजु, परमेश्वरी शोद्धति	"	0-40	धान का खेत	
	39-1	शुष्क	3-72	बेंकम्मा और अन्य	सुमप्प शेट्टी (नियोजक)	0-35	शुष्क भूमि (खाली)	
	39-3	"	1-14	लजु और परमेश्वरी शोद्धति	नारायण शेट्टी	0-26	"	
	39-4	शुष्क	0-86	कोरपाणु हेंगसु	1. यमप्प शेट्टी 2. मैद हेंगसु और अन्य	0-08	शुष्क भूमि (खाली)	
	148-1	"	1-09	कोरपाणु हेंगसु	मैद हेंगसु और अन्य	0-32	"	
	148-3	"	1-62	बेंकम्मा	वामोवर शेट्टी	0-13	"	
	144-5सी	"	0-40	रत्ना शोद्धति	"	0-31	"	
	144-5बी	"	0-40	देवदास शेट्टी	"	0-35	"	
	144-5ए	"	0-40	रघुराम शेट्टी	"	0-25	"	
					मफीसा दे० एम०	0-13	प्रीनेट फाऊन्डेशन और भार० सी० सी० कालम का बना हुआ 1 प्रास- निक भवन	
	144-2	"	0-90	अल्फोनसो पिटो	दजैयिम बाई	0-01	खाली	
	43-2	"	0-25	बी० एच० मोहम्मद, और बी० एच० अब्दुल खादर	"	0-15	"	
	-1बी	"	2-51	"	"	0-55	1 कुर्घा और आम के पेड़	
	-1ए 2	"	0-95	ऐसम्मा	डा० गोपीनाथ भाल	0-35	कुर्घा और आम के पेड़	
	130-2बी	"	0-83	नरसिंग राव	"	0-01	आम के पेड़	
	143-2ए	"	0-68	हुजि मेरी पेरिरा	पास्कल पेरिरा और जान पेरिरा	0-18	खाली भूमि	
	-2बी	"	0-25	"	"	0-03	"	
	-4	"	2-44	येड्डेम्मा गोसास्त्रिस	मोहतेन बाई	0-75	"	
	143-5	"	1-24	"	"	0-05	"	
	44-1	भार्त	2-12	नागम्म शोद्धति	जान और पास्कल पेरिरा	0-20	धान का खेत	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-3ए	भार्त्र	0-39	नागभूमि शोभति	जान प्रीर पास्कल पेरीरा	0-12	घान का खेत	
	-3बी	"	0-19	"	"	0-14	"	
	48-1	शुष्क	4-14	येह्मेड गौसाल्विस	मोडतेन भाई	0-50	खाली	
	48-2ए	"	3-08	महमद साब और अन्य	प्रल्ली साब	0-06	"	
	47-1	भार्त्र	7-16	येह्मेड गौसाल्विस	मोडतेन भाई	0-61	घान का खेत	
	49-1डी	"	1-42	महमद साब	प्रल्ली साब	0-12	"	
	-1सी	"	2-18	बुजिजनाबि	करीम साब	0-45	" 1 मारियल का पोधा	
	-1बी	"	1-57	महमद साब	प्रल्ली साब	0-30	"	
	-1ए	"	1-05	बुजिजनाबि	बुडेन साब	0-20	1 कुआ	
151-2ए 3बी 1	शुष्क			शोक मोहम्मदर	करीम साब	0-01	घान का खेत	
31-3					"	0-97	(खाली) काजू का बगीचा	
					मर्सिल डिजीजा	0-50	खाली भूमि	
	50-3बी	शुष्क	0-63	शुक्णा		0-15	खाली भूमि	
	-7ए 2	"		राम देव डिगा	---	0-30	"	
	-7बी	"	2-76	कोचप्प देवडिगा	---	0-01	"	
	-6बी	"		पोसील पेरीरा	रबीन्द्र	0-65	"	
178-2सी	"		0-67	"	"	0-71	"	
-2ए	"		1-76	"	"		"	
176-6ए 1	"		4-73	भवानी राव	पास्कल ब्रदर्स	1-00	खाली भूमि	
178-1सी 1ए	"		20-53	मालफ्रेड करनाडिस	प्रिसिम प्ररोजा पे	1-10	ग्राम का बगीचा	
-1ए	"		0-34	"	"	0-01	"	
-1बी	"		0-76	"	"	0-16	"	
95-8बी	शुष्क		0-38	पास्कल रुथ	---	0-21	"	
-7डी 1	"		0-40	"	---	0-32	सागौन के पेड़	
-7डी 2	"		0-89	पाउल रुथ	---	0-27	ग्राम और सागौन की लकड़ी	
-7ए 2	"		0-84	मेरी बेकोट्रिया पिटो	---	0-10	ग्राम और सागौन लकड़ी	
98-2ए 6सी	"		2-63	मोस्ते-सिकवीरा	---	0-45	खाली	
-7	भार्त्र		0-93	हेन्री मंथेरी	---	0-75	घान का खेत	
-4ए	"		1-95	फ्रान्सि मेरांड और अन्य	---	0-03	"	
98-5एसी	शुष्क		0-11	हेन्री मंथेरी	---	0-03	खाली भूमि	
-5बी	भार्त्र		1-52	"	---	0-07	"	
-5ए 6बी	शुष्क		8-75	हेन्री मंथेरी और अन्य	हेन्री मंथेरी	0-20	"	
-4बी	"		4-42	पीटर डिजीजा	हेन्री मंथेरी	1-75	"	
101-1	"		0-90	लिविया मंथेरी	"	0-25	"	
-3ए	भार्त्र		0-40	सुमित्रा भाई	"	0-20	मारियल, ग्राम और कटहल के पेड़	
105-3	शुष्क		10-05	सेन्ट जोसेफ चर्च	प्रल्फोन्सो मोरस	0-02	खाली	
-1			1-13	"	"	0-55	"	
-2बी	भार्त्र		1-02	इपेलट फावर मुलूस इस्टीम.पूट, मंगलोर	मोन्थू सेक्यूरा	0-02	घान का खेत	
-2सी	शुष्क		4-69	"	---	0-92	"	
105-1बी 2	"		5-47	सेन्ट जोसेफ चर्च	---	0-50	खाली	
107-	"		13-04	माल्फ्रेड और जे० करनाडिस	डियोगो रेगो और अन्य	0-87	"	
108-4बी	"		14-92	मुडन साब	हैदर साब	1-30	"	
कै-जार ग्राम								
1-2	भार्त्र			दूमाक हेंगसु		0-30	घान का खेत	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला	:	दक्षिण कन्नडा						
तालुक	:	मंगलौर						
ग्राम का नाम	:	कैजार सं० 66						
133	10	भार्त II	1-21	पालरोज बैयरी, भ्रष्टुल खावरी बैयरी	शीना शेटी	0-20	धान का खेत	
133	11	भार्त I	0-31	भ्रष्टुल खावरी बैयरी	"	0-27	"	
	4	"	4-82	1. पालरोज बैयरी 2. भ्रष्टुल खावरी बैयरी 3. बुफातिमा	2. शीना शेटी 2. ऐतप्पा शेटी	0-85 0-15 0-15	" " "	
						1-00		
	5	भार्त I	0-33	पालरोज बैयरी	ऐतप्पा शेटी	0-24	धान का खेत	
	6	"	0-69	बुफातिमा	"	0-16	"	
					शीना शेटी	0-28	"	
	7	"	1-76	राम विठ्ठल वेवड (पेजाबर मठ)	बैकप्पा शेटी	0-31	पानी का टैंक और शेड	
	12	" I	0-96	बुफातिमा	ऐतप्पा शेटी	0-35	धान का खेत	
131	11	" I	0-78	श्री राम विठ्ठल वेवड (पेजाबर मठ)	रामचन्द्र भट्ट	0-09	"	
131	1	उद्यान	0-22	श्रीनिवास राय, गुंडू राव भ्रष्टुल मूल्या		0-09	घर का एक भाग 2,	
	2	भार्त III	2-49	"	"	0-02	नारियल के पेड़, 5 नारियल के पौधे, एक ग्राम, 1 कटहल का पेड़।	
	24	भार्त III		"	1. भ्रष्टुल मूल्या 2. गुंडू राव	0-58 0-27	3 नारियल के पेड़ 5 "	
134	5	भार्त II	4-25	श्रीनिवास राय, गुंडू राव	1. भ्रष्टुल मूल्या 2. भ्रष्टुल शेटी 3. मुद्दू शेटी 4. शिवराम शेटी	0-03 0-12 0-21 0-25	धान का खेत " " "	
						0-61		
117	9	भार्त II	3-54	श्रीराम विठ्ठल वेवड (पेजाबर मठ)	नेमू शेड्डी	0-75	धान का खेत	
	8	भार्त II	0-17	"	राम चन्द्र भट्ट	0-15	"	
	7	" II	0-65	"	"	0-04	"	
	6	" II	1-65	"	"	0-02	"	
137	6	" II	0-34	थोमस बिक्रूस	नारायण मूल्या	0-06	"	
	7	" II	1-14	"	"	0-42	"	
	5	" II	0-89	बी० सुब्बटया शेटी	भदानी बैप्पाक नारायण मूल्या	0-45	"	
138	2 सी	भार्त II	3-13	एम० पकीरम्मा	"	0-75	"	
	7 ए	" II	1-12	"	"	0-04	"	
	2 ए	" II	0-62	"	"	0-31	"	
145	5 ए	भार्त II	0-82	पि० सुसीला बाई	गोपाल पुजारी	0-08	"	
146	16	भार्त II	1-09	पद्मावति	शीना भोयली	0-13	"	
	13	भार्त I	0-16	"	गणप पुजारी	0-01	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	2	आर्द्र II	1-77	कालिय मधेन कृपा देवस (कृष्णापुर मठ)	सेति हेंगसु		0-09	धान का खेत
	4	आर्द्र II	1-55	लक्ष्मी नारायण	गुंडू मूल्या		0-80	"
	6	" II	0-50	पद्मावति	शीना मोयली		0-19	"
					गोपाल पुजारी		0-04	"
	7	आर्द्र II	0-75	लक्ष्मी नारायण	प्रोबला पुजारी		0-08	"
					कृष्णप्य मूल्या		0-23	"
							0-31	
	10	आर्द्र II	0-73	सुनु शुद्धति (मणप शेटी (हिस्सेवार)			0-01	
154	7	आर्द्र II	2-63	अम्मण काबा	1. नसी हेंगसु 2. कल्यापि शेटी 3. तिमप्य शेटी 4. धामोदर राव		0-02 0-07 0-10 0-33	सासेवारी के अन्तर्गत अधिभोज करना (परिवार का आयदाद)
136	12	आर्द्र III	2-79	संजीव राव	सावित्री वैष्णव लोकप्यय सुवम्मा बाबु शेटी		0-18 0-01 0-01	धान का खेत धान का खेत धान का खेत
	11 ए	आर्द्र I	0-80				0-05	नाग बाना
	11 बी	आर्द्र I	0-56	बालकृष्ण राव			0-02	आली जगह
35	1	शुष्क	0-08	पि० संजीव राव "	गिरिजा शेद्धति		0-07	
	13	आर्द्र III	0-75	पि० संजीव राव	गिरिजा शेद्धति कांतप्यण शेटी		0-22 0-01	धान का खेत
	14	शुष्क	0-16	पि० संजीव राव	कांतप्यण शेटी		0-16	काजू का बगीचा, 6 धान के पेड़ 1 कटहल पेड़
				वामा हेंगसु	वामा हेंगसु		0-04	
	15	शुष्क	1-21	पि० संजीव राव वामा हेंगसु			0-08	काजू का बगीचा, 15 सागौन के पीछे, केले के पीछे
	11	आर्द्र III		पि० संजीव राव एम० एस० मूसब्बा			0-38	1 काजू का पेड़ दुकान का एक भाग
					कांतप्यण शेटी		0-18	धान का खेत
							0-56	
	8	उद्यान	0-13	पि० संजीव राव	कांतप्यण शेटी		0-40	धान का खेत
	16	"	0-06	नामहि शेटी			0-03	"
33	3	"	0-17	कांतप्य अडपा			0-02	"
	10	आर्द्र III	4-12	"			0-13	"
	14	आर्द्र III	0-45	"			0-45	"
	12	आर्द्र II	0-15	"			0-15	"
	13	उद्यान	0-10	संकयू हेंगसु	कांतप्य अडपा		0-10	7 नारियल, 1 सुपारी, 3 कटहल, 1 सिंघाई का कुआँ
	1	आर्द्र III	1-52	विशम्मा शेद्धति			0-20	धान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	5	भारत I]	3-14	भुवु शेखति]	1. बोड्डम्य शेखी 2. सवधिव शेखी	0-45 0-09 <hr/> 0-54	धान का खेत ,, <hr/>	
	6	भारत I	0-58	भम्मण कावा	भुशीला शक्ति बंगी शक्ति	0-23 0-18	भारितापत्र के भर्तमान अधिभोज	
156	1	भारत III	0-22	कृष्णापुर मठ	ताया पुजारी	0-02	धान का खेत, 5 नारियल के पेड़, 1 ताड़ का पेड़,	
	3	भारत I	2-33	,,	,,	0-35	धान का खेत	
158	15	भारत III	2-33	भम्मण कावा	बालकृष्ण राव बोया कावा (मलिक)	0-08 0-17	,, ,,	
39	1	भारत I	2-25	मुवु शेखी,				
				मोनप्प शेखी (हिस्से- दार)		0-06 0-40	धान का खेत ,,	
				गणप्प शेखी (,,)		0-24	,,	
38	9	भारत I	4-18	बालकृष्ण राव	बालकृष्ण राव मारण शेखी भंतप्प बंगेरा	0-40 0-54 0-51	धान का खेत, सुपारी के पेड़, 2 कटहल के पेड़ धान का खेत, 7 नारियल के पेड़, 5 नारियल के पीछे	
38	8	भारत I	0-70	बालकृष्ण राव		0-07	धान का खेत	
	1	उद्यान	0-14	,,	मारण शेखी	0-04	4 नारियल और 2	
	3	भारत I	2-30	,,	,,	0-22	सुपारी के पेड़, 6 नारियल का पीछे	
	2	भारत I	0-95	संजीव राव (पट्टा इनके नाम पर है) संजीव पुजारी		0-40	धान	
36	12	भारत III	2-79	संजीव राव	लक्ष्म्य सुबन्ना बाबू शेखी संजीव राव	0-01 0-16 0-30	2 नारियल के पीछे धान भाम की फसल, 1 केले का बगीचा, 1 सिचाई कुंधी, विद्युत पम्प सेट शेख 18 नारियल के पेड़, 1 भाम का पेड़	
31	18	भारत II	0-10	श्रीनिवास भट्ट	सरस्वति	0-04	धान का फसल, 2 नारियल के पेड़	
	11	भारत II	0-5	,,	सरस्वति	0-02	धान का फसल	
	17	भारत II	0-43	वासुदेव भट्ट	सरस्वति	0-08	,,	
	16	उद्यान	0-21	,,	सरस्वति	0-10	49 सुपारी के पेड़, 1	
	12	भारत II	0-09	,,	सरस्वति	0-09	नारियल का पेड़, 1 भाम का पेड़, भाषा साईट, सिचाई कुंधी ।	
	5	उद्यान	0-11	वासुदेव भट्ट	मोनप्प मोयलि	0-08	5 नारियल के पेड़, 2 नारियल के पीछे, भाषा साईट, सिचाई कुंधी ।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	भारत I	0-47	वासुदेव मट्ट	मोनप्प मोयलि	0-33	धान	
	3	उद्यान	0-36	रामप्प शेट्टी	कांतप्प अन्नपा	0-25	{ 23 नारियल के पेड़, 18 नारियल के पीछे, 6 सुपारी, 1 मईलु पेड़, 1 कटहल, 2 आम और 1 राबगेवा पेड़ 3 सागौन के पेड़	
29	6 ए	भारत III	0-42	हमडू बैयरि	कांतप्प अन्नपा	0-31		धान का फसल
27	18	भारत III	0-64	कांतप्प अन्नपा	"	0-15	"	
	19	भारत III	0-25	"	"	0-25	"	
29	1	भारत I	5-77	हमडू बैयरि	"	0-48	"	
					नागप्प केशवा	1-70	{ 21 नारियल के पेड़, 2 गोल, 2 होने मरा, (पेड़) 1 आम का पेड़	
	2	भारत III	0-33	हमडू बैयरि	"	0-02		धान
जिला : दक्षिण कन्नड़								
तालुका का नाम : मंगलूर								
ग्राम का नाम : टोक्कूर								
77	2	भारत	भाग	35	162. पकोजी बीज लिंगोति बेजमी सौजा	(1) इयूमिंग रोजरी जिसीजा	0-05	धान का खेत
						(2) फोसेस जिसीजा	0-10	"
						(3) मरलिन जिसीजा	0-10	"
						(4) मगू बाई	0-10	"
							0-35	
77	3	भारत	भाग	03	188. सुंदर राव	त्यापण पुजारी	0-03	धान का खेत
76	6	"	"	13	168. कत्तीजा बी, अमीना रेहमान	मियी बीपास	0-13	"
77	4	"	भाग	51	"	रामप्प सुवर्ण	0-51	"
77	5	"	भाग	05	180. सुंदर राव	त्यापण पुजारी	0-05	"
79	1 ए	"	भाग	20	165. कत्तीजा बी, अमीन रेहमान	संजीव पुजारी	0-20	"
79	15	"	भाग	01	165. "	सीन पुजारी	0-01	"
83	12 ए	भारत	भाग	11	86. बामस फगज	अंजलिन जिसीजा	0-11	"
83	12 बी	"	भाग	35	26. पोलिकर्ल विगास	"	0-35	"
83	10 ए	"	भाग	03	165. कत्तीजा बी, अमीना	सीन पुजारी	0-05	"
83	10 बी	"	भाग	03	165. " रेहमान	"	0-03	"
83	4	"	भाग	13	47. हसने बेरी	बी० उन्हीमोनु	0-13	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	15	आर्द्र	भाग	29	21. क्रोस्टिन बर्डगास बाई फान्सिम वेल्गास	वे राब वेल्गास सन ब्राफ क्रोस्टिन फ्रांसिस वेल्गास जोरम वेल्गास	0-19 0-08 0-02 0-29	धान का खेत ,, ,,
83	5	आर्द्र	भाग	29	198. पि० रामकृष्ण राव सिएफई	मेरी डिसोजा बाटर ब्राफ फ्रांसिस पोरको	0-29	,,
83	68	,,	भाग	30	165. कतीजा बी, भमीना रेहमान	फोनिस डिसोजा	0-30	,,
83	7	,,	भाग	26	200. पी० संजीव राव	बेंजमिन डिसोजा	0-26	,,
84	40	,,	भाग	04	22 इंधुधोइगास	फलोवरिन वेल्गास	0-04	,,
85	5	,,	भाग	58	एस० सच्चिदानन्द राव	(1) जारप्प पुजारी (1) संजीव पुजारी (2) राजम्मा बि० दोहूम्य पुजारी (संयुक्त)	0-36 0-23 0-58	ईख और धान का खेत धान का खेत
85	7बी	आर्द्र	भाग	0-33	28. पोलिकार्फ बेंगास	(1) मरीन बाई बाइफ ब्राफ मेरीन डिसोजा (2) जोकी डिसोजा सन ब्राफ पाऊल डिसोजा (3) बेंजमिन फरनाडिस सन ब्राफ क्रिस्टिन फरनाडिस	0-1 0-07 0-15 0-33	ईख का खेत ,, ,,
84	3	उष्ण	भाग	0-01	26, पोलिकार्फ बंगस	बाबलिन फेरी एस/ओ मन्लू फरो	0-01	धान का खेत
03	20	आर्द्र	भाग	0-03	8, मैकेल वेगल	क्रिस्टिन वेगस बा/ओ बजिल वेगस	0-03	ईख, 3 नारियल और 3 कोको के पेड़
03	19	आर्द्र	भाग	0-06	76 प्रभाकर राव भावि	इयूमिंग रोसरी एस/ओ सिगोरी बेंजमिन डिसोजा	0-06	3 नारियल के पेड़ और मिर्ची की खेती
99	1	आर्द्र	भाग	0-02	मैकेल वेगस	क्रिस्टिन वेगस बाटर-ब्राफ बजिल वेगस	0-02	ईख और मिर्ची की खेती
95	13	आर्द्र	भाग	0-76	76, प्रभाकर राव, भावि	(1) इयूमिंग रोसरी डिसोजा (2) घणे बाई (3) सबोर डिसोजा (4) भसिलिन डिसोजा	0-33 0-23 0-10 0-10 0-76	मिर्ची की खेती ईख, 1 साले पाम पेड़ मिर्ची की खेती मिर्ची और तरकारी की खेती
95		आर्द्र	भाग	0-26	67, पि० संजीव राव	(1) क्रिस्टिन वेगस और जान वेगस (2) बर्नार्ड वेगस सन ब्राफ क्रोस्टिन	0-20 0-06 0-26	धान का खेत और केला मिर्ची और ईख

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	11	आर्द्र	भाग	0-02	67, पि० संजीव राव	(1) क्रिस्टिन वेगस और जान वेगस	0-02	2, नारियल के पेड़, 25 केले के पेड़
95	15	आर्द्र	भाग	0-30	86, थामस वेगस	(1) लूइस डिसौजा सन आफ मोइलिन डिसौजा	0-10	मिर्ची की खेती
						(2) जेरम डिसौजा सन आफ जान डिसौजा	0-20	ईख
							0-30	
96	2	आर्द्र	भाग	0-57	85, बि० बैकल्पम्या	(1) मरुल लोबो	0-42	ईख और धान का खेत
						(2) श्रीमती प्रलिस सौजा बाइफ आफ बजिल सौजा	0-15	ईख
							0-57	
96	6	आर्द्र	भाग	0-46	85,	(1) जियोगरी फेरो सन आफ कारिमर	0-16	3 नारियल के पेड़, 3 कोको के पीछे, ईख की खेती
						(2) प्रलेक्स फेरो सन आफ कारिमर	0-06	"
						(3) रसेरियो फेरी सन आफ कारिमर	0-18	"
						(4) विलतंग फर्नूडिस सन आफ जियोगरी		"
						(5) प्रउरलटिन फेरो	0-06	"
							0-46	
97	1	आर्द्र	भाग	0-31	77, एत० के अकिसियज रिसीवर आदि	(1) नियो डिसौजा सन आफ रोजरियो डिसौजा	0-11	धान का खेत, 1 नारियल का पेड़
						(2) जेरजा डिसौजा बाइफ आफ फिलिप डिसौजा	0-09	धान का खेत, 2 नारियल के पेड़
						(3) लियो डिसौजा सन आफ जेरोम डिसौजा	0-10	धान का खेत
						(4) तेरेसा वेल्ली बाइफ आफ रिफेल डिसौजा	0-01	धान का खेत, 1 नारियल का पेड़
							0-31	
103	12ए	आर्द्र	संपूर्ण	0-03	124, रेफील डिसौजा आदि	(1) तेरेसा कीवेल्लो और जेरसा डिसौजा	0-03	ईख
			भाग	0-02	124 "	(1) तेरेसा कोवेल्लो और जेरसा डिसौजा	0-02	2 नारियल के पेड़
103	11बी	आर्द्र	भाग	0-01	59, नियो डिसौजा	(1) नियो डिसौजा सन आफ रोसरी डिसौजा	0-01	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	भार्ग	भाग	0-38	लुईस रोजिक्स भाई	(1) नीलम्प पूजारी सन- भाफ वूमम्प पूजारी, बैकम्पादि	0-23	धान का खेत	
					(2) जल्फैन वेगस बैफ- भाफ डेविड डिसोजा बैकम्पादि	0-15	धान का खेत, पलमैरा पेड़ 2, 4 नारियल के पौधे, नारियल के पेड़ (झुकने वाला)	

जिला का नाम : वसिण कन्नडा

तालुक का नाम : मंगलौर

ग्राम का नाम : पेनंबूर

1	2	12	भार्ग	1-24	औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही अर्जित की जा चुकी है।	0-40	क्र० संख्या 1 से 37 तक के प्लॉट राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए अर्जित किये जा चुके हैं।
2	2	11	भार्ग	1-06		0-28	
3	2	9	भार्ग	2-78		0-22	
4	3	18	"	0-47		0-44	
5	3	17	"	0-92		0-50	
6	3	15	"	0-66		0-42	
7	4	5	उद्यान	0-51		0-30	
8	4	6	भार्ग	1-05		0-23	
9	4	7	"	1-01		0-58	
10	4	8	"	0-35		0-26	
11	4	9	"	0-31		0-08	क्रम संख्या 37 और सर्वेक्षण सं० 23/ए/ए में निदिशित भूमि पुरानी है।
12	4	15	"	0-36		0-58	
13	4	12	"	0-66		0-02	
14	8	11ए	"	0-94		0-42	
15	8	9	भार्ग	0-33		0-01	लोक निर्माण विभाग की सड़क का धन नहीं राष्ट्रीय मुख्य मार्ग सं० 17 में विलयन हो गया है। इसलिए भविष्य में इसका अर्जित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
16	8	11बी	"	0-84		0-39	
17	8	7	"	0-95		0-32	
18	8	12	"	0-80		0-18	
19	8	13	उद्यान	0-26		0-14	
20	8	15	भार्ग	0-94		0-25	
21	8	14	"	1-88		0-40	
22	9	1	"	4-62		1-03	
23	9	3	"	3-25		0-35	
24	9	8	उद्यान	0-16		0-11	
25	9	7	"	0-16		0-15	
26	9	6	भार्ग	1-82		0-46	
27	10	1ए	"	7-10		1-60	
28	12	9	"	0-88		0-44	
29	12	10	"	0-68		0-04	
30	11	8	"	0-38		0-15	
31	11	17	भाग	0-02		0-01	
32	11	9	शुल्क	0-21		0-13	
33	74	7ए2	भार्ग	0-11		0-03	
34	74	7ए1बी	पोरबीकी	0-13		0-07	
35	7	7ए10					
36	74	7ए1ए	भार्ग	0-81		0-40	
37	23	ए1ए	मार्ग	1-84		0-12	पुरानी खो० नि० वि० की सड़क धन नहीं पश्चिमी समुद्र तटवर्ती मार्ग में विलयित हो गई है।

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 27th October, 1978

NOTIFICATION

S.O. 618(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby directs that the

right of user for laying pipelines in the lands specified in the Schedule annexed hereto, which was declared to be acquired by the Central Government by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel) number 4(3)/76-KDM (I) dated the 25th October, 1978, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, shall, instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of the aforesaid declaration in the Official Gazette, in the Kudremukh Iron Ore Company Limited.

SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM MALLESWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON COMPANY LTD.

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkala

Name of the Village : 73, Nooralbettu

Sl No.	Field Survey Number	Sub. Div. Nos.	Classification of land	Total area of the Sub. Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	123	1	Dry	2781.91	Govt. land	A.W.	—		
2	188	1	Dry	45.39	Do.	A.W.	—		
3	188	3	Dry	0.23	Devaraju Athikari	A.W.	0.20		
4	70	4	Garden	0.18	51, Lingappa Mudya	—	0.10	Areca nut, Coconut Jack trees	
5	70	3	Wet	4.36	51, Lingappa Mudya	—	0.63	Do.	
6	70	8	Garden	0.13	Do.	—	0.05	Do.	
7	70	5	Do.	0.43	Do.	Babu Moolya	0.08	Mango and coconut	
8	70	7	Wet	4.67	Do.		1.22	Jack trees	
9	71	3	Wet	2.67	10 Appu Martha	Namu Shetty	0.04	Coconut, Jack and Cashew	
10	71	5	Wet	1.37	Do.	Somaya Gowda	0.60		
11	244	2	Dry	1.34	Govt. land	A.W.	0.60		
12	244	1	Dry	2.06	Govt. land	A.W.	0.48		
13	244	3	Dry	2.74	Somaya Gowda	Self	0.09	Cashew, Jack and Mango	
14	78	4	Wet	0.84	Nemiraja Athikari	Self	0.40	Coconut	
15	78	5	Wet	0.27	Chandranatha Devaru	Kariyanna	0.22		
16	78	7	Wet	0.26	10 Appu Martha	Do.	0.12		
17	78	8	Wet	0.73	Devaraju Athikari	Do.	0.65	Areca nut, Coconut, Plywood, Jack	
18	79	1	Garden	0.24	41, Boggi Hengsu	Do.	0.25	Coconut, Areca nut	
19	79	2	Wet	1.60	41, Do.	Do.	0.22	Do.	
20	79	5	Wet	0.89	41, Do.	Do.	0.11		
21	169	3	Dry	0.07	Devaraju Athikari	Do.	0.07	Areca nut, Plywood, Mango, Jack.	
22	169	1	Dry	5.92	Govt. land	A.W.	0.50		
23	122	1	Dry	17.25	Govt. land	A.W.	—		
24	49	5	Wet	0.57	Appu Martha	Kamala	0.40		
25	49	3	Wet	0.75	Do.	Do.	0.10		
26	49	1	Dry	1.13	Do.	Do.	0.30	Plywood, Cashew trees	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	150	1A	Dry	1.96	Govt. land	A.W.	0.18		
28	150	18	Dry	0.63	Pushpavathi	Gunnana Kalraya	0.28		
29	150	2	Dry	0.06	Gunnana Shetty	—	0.01		
30	48	5	Wet	1.27	Puspavathi	Gunnana Kalraya	0.50	Coconut Trees	
31	162	2	Dry	5.75	Do.	Do.	0.85	Cashew Plants	
32	162	1	Dry	1.72	Rathanamale	Gunnana Kalraya	0.40	Cashew Plants	
33	47	4	Wet	0.09	Puspavathi	Do.	0.02		
34	47	2	Wet	1.45	Do.	Do.	0.80	Coconut, Arecanut	
35	47	1	Wet	2.24	Do.	Do.	0.35	Do.	
36	163	—	Dry	5.45	Do.	Do.	0.78	Jack, Cashew	
37	217	—	Dry	19.21	Govt. land	A.W.	0.40		
38	213	1	Dry	0.08	Govt. land	A.W.	0.02		
39	213	2	Dry	0.06	Govt. land	A.W.	0.01		
40	213	3	Dry	3.40	Dry land A.W.	Dogra Nalke	0.90		
41	112	1	Dry	2.95	Maru Devi	Nemiraja Bandary	0.70	Cashew Plants, Bogi trees	
42	112	3	Dry	1.43	Govt. land	A.W.	0.30		
43	112	2	Dry	2.12	Nemiraja Hegde	Sundara Moolya [Nemiraja Poovani]	0.95	Cashew, Bogi Plants	
44	45	—	Wet	3.15	Do.	Sundara Moolya	0.15		
45	27	3	Wet	0.69	Pralhadha	Chandraya Cochey	0.30	Coconut, Cashew	
46	27	4	Wet	0.23	Do.	Do.	0.10	Do.	
47	27	2	Garden	0.57	Do.	Do.	0.12	Do.	
48	27	1	Dry	2.72	Do.	Do.	0.55	Do.	
49	122	1	Dry		Govt. land	A.W.		Do.	

**SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE
FROM MALLESWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH
IRON ORE PROJECT**

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkala

Name of the Village : 74, IDU

Sl. No.	Field Survey Number	Sub. Div. Nos.	Classification of land	Total area of the Sub. Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of Survey No. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	167	—	—	—	—	—	0.09		
2	163	1	Dry	1.39	Karkala Venkataramana Devaru	—	0.05	Coconut Trees	
3	106	1	Wet	0.68	Do.	Boova Poojari	0.32		
4	106	2	Wet	0.50	Girjamma	Do.	0.30		
5	106	3	Wet	0.58	Karkala Venkataramana Devaru	—	0.27		
6	107	1	Wet	4.30	Do.	Do.	0.68	Coconut, Arecanut Wild Jack, Mango	
—	—	—	—	—	—	Manjunatha Kamath			
—	—	—	—	—	—	Thampa Poojary			
7	132	1	Dry	2.73	Govt. land	A.W.	0.70	Cashew Nut, Wild Jack	
8	132	2	Dry	2.04	Venkataramana Devaru	Manjunatha Kamath	0.75		
9	142	—	Dry	49.47	Govt. land	A.W.	—		
10	190	1	Dry	4.92	Govt. land	A.W.	0.55		
11	190	2	Dry	1.30	Dejamma	Self	0.35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	256	1	Dry	2.88	Durga Parameshwari	—	0.65		
13	105	3	Wet	3.23	Do.	Babu Moolya, Chukra Moolya	0.75		
14	105	6	Garden Wet	0.35	Durga Parameshwari	—	0.08		
15	295	2	Dry	4.15	Do.	—	0.65		
16	295	3	Dry	0.31	Govt. land	A.W.	0.20		
17	295	1	Dry	3.09	Dejamma	Self	0.12		
18	267	—	Dry	4.00	Govt. land	A.W.	0.40		
19	306	1	Dry	3.19	Hari Bhat	Self	0.25	Cashew Plants	
20	306	3A	Dry	4.74	Govt. land	A.W.	—		
21	136	—	Dry	47.06	Govt. land	A.W.	—		
22	188	2	Dry	1.94	Govt. land	A.W.	0.32		
23	188	4	Dry	1.38	Hari Bhat	Self	0.15		
24	188	5	Dry	0.22	Govt. land	A.W.	0.10		
25	188	6	Dry	0.72	Kashi Kalabairava	Krishna Bhat	0.27		
26	8	8	Wet	0.47	Do.	Do.	0.27		
27	8	9	Wet	2.78	Do.	Do.	0.80		
28	149	1	Dry	5.70	Govt. land	A.W.	1.50		
29	149	2	Dry	0.25	Jagathpal Shetty	Self	0.10		
30	11	3	Wet	0.83	Cheluvamma	Dharmana Moolya	0.05		
31	11	7	Dry	0.54	Do.	—	0.02		
32	5	1	Wet	1.87	Jagathpala Shetty	Self	0.65		
33	5	2	Wet	0.69	Jagathpala Shetty	Self	0.17		
34	150	2	Dry	1.90	Jagathpala Shetty	Self	0.12	Coconut Plant, Plan- tation Trees Areca- nut	
35	150	3	Dry	—	—	—	0.05		

VILLAGE : 72 NELLIKAR-18

Sl. No.	Field Survey Number	Sub. Div. Nos.	Classifica- tion of land	Total area of the Sub. Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92	4	Bagaythu	0.27	57 Kusumaji		0.16		
	92	5	Paramboke	0.87	Basthi		0.08		
	92	6A	Dry	0.62	A.W.		0.24		
	..	6B	Dry	0.06	57 Kusumaji		0.02		
	..	8	Dry	2.93	57 do		0.30		
	214	..	Dry	82.06	A.W.		0.54		
	234	1	Dry	4.52	53 Shiva Devi Anantharaj Aluva		0.76		
	182	1	Dry	2.38	53 -do-		0.01		
	70	1	Wet	5.52	93 -do-	Padmaraj Alva, Kali, Sheshappa, Moolya	0.58		
	..	2	Wet	4.76	93 Shiva Devi	Rathnavathi & Others	0.80		
	..	3	Garden	0.19	53 Shiva De vi Anantharaj Aluva	..	0.01		
	110	2	Dry	3.98	53 -do-	..	0.02		
	..	3	Dry	0.85	47 Nonayya Poojarl	Nonayya Poojarl	0.03		
	67	1	Wet	0.33	36 Mahabala	Mahabala	0.06		
	..	2A	..	0.60	36 -do-	-do-	0.06		
	..	2B1	..	1.69	100 Chaluane Chalu- vayya	Chaluvayya	0.12		
	..	4	Paramboke	0.77	Thodu (Channel)	..	0.02		
	..	6A	West	1.41	Nonu Hengsu	Nonayya	0.14		
	..	6B	Wet	1.13	36 Mahabala	Mahabala	0.55		
	..	6C	..	0.23	47 Nonayya Poojarl	Nonayya	0.13		
	..	7	Garden	0.49	100 Chaluane Chalu- vayya	Chaluvayya	0.01		
	169	2	Dry	3.93	123 -do- Nonu Hengsu	Chaluvayya Nonn Nonu Hengsu	0.66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	222	1A	Dry	2.85	83 Yashaswathi	..	0.57		
	39	..	"	2.51	83 -do-	..	0.83		
	214	..	"	82.06	A.W.	..	1.81		
	40	1	Wet	3.20	83 Yashaswathi	Jeevandara	0.66		
		4	Wet	0.46	43 Ammanni	Dakayya	0.28		
		5	"	0.49	83 Yashaswathi	Jeevandara	0.20		
		7	Garden	0.17	83 Ammanni	Dakayya	0.03		
	43	3	Wet	2.62	43 -do-	Jeevandara	0.25		

SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM MALLESWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON ORE PROJECT

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkal

Name of the Village—72 Nellicar

Sl.No.	Field Survey Number	Sub. Div. Nos.	Classification of land	Total area of the Sub. Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42	2 A	Dry	0.48	83 Yashaswathi	..	0.03		
		2B	Dry	3.40	43 Ammanni	..	0.81		
		2C	"	1.16	101 Jinadatha Shetty	Kookranali Anna	0.14		
	102	..	Wet	3.98	101 -do-	Kookranali Anna	0.85		
	49	3A	"	1.86	101 -do-	Jinadatta Shetty	0.27		
	49	1	Wet	2.83	101 -do-	-do-	0.49		
	138	1	Dry	8.00	101 -do-	-do-	0.67		
	103	1	"	854.16	A.W.	..	1.35		
	174	..	"	5.48	40 Soma Vodamma	..	0.43		
	237	1	"	0.71	-do-	..	0.40		
		2	"	3.23	103 Adiraja Ajila	..	0.01		
	58	1	Wet	7.04	40 Soma Vodamma	Koragadi & Others	0.16		
		2	"	0.71	40 -do-	Sheena Poojari & Others	0.22		
	57	1	"	4.18	103 Adiraja Ajila	Robothe Thaniya	0.15		
		2	"	0.97	103 -do-	-do-	0.30		
	236	..	Dry	3.66	103 -do-	-do-	0.52		
	228	6	Dry	3.84	A.W.	..	0.67		
		2	"	0.93	A.W.	..	0.03		
		3A	Dry	0.63	108 Puttamma	Chandu poojari	0.25		
		3B	Dry	0.63	109 Vasudeva	-do-	0.25		
		4	Dry	0.80	34 Ratnavathi	Koraga Madivala	0.26		
		5	Dry	0.34	A.W.	..	0.06		
	229	1	"	1.44	107 Parameshwara	Parameshwara	0.58		
		2	"	1.06	A.W.	..	0.07		
	32	1	Wet	1.36	107 Parameshwara	Parameshwara	0.05		
		2	"	0.87	29 K.S. Vimla Ballala	Krishna Bhatta	0.37		
		3	"	0.39	1 Srimathi Amma	-do-	0.32		
		4	"	1.26	34 Rathnavathi	Koraga Madivala, Chikkayya	0.42		
		5	"	1.92	34 -do-	-do-	1.15		
	215	..	Dry	36.91	A.W.	..	0.16		
	31	2	Wet	1.23	39 Devaraja Ajri	Kookra Poojari	0.01		
		6	Wet	0.44	1 Srimathi Amma	Babu Poojari	0.08		
		12	"	0.54	-do-	..	0.34		
	27	2	Dry	6.52	A.W.	..	0.48		
	30	1	Wet	6.22	34 Ratnavathi	Kookra Poojari & others	1.02		
		6	"	0.37	34 -do-	Vishwavarma Hedge	0.08		
		7	Garden	0.38	34 -do-	..	0.18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8		Wet	0.60	34 Ratnavathi	Vishwavarma Hedge	0.20		
	175 1		Paramboke	2.45	Grazing Ground	..	0.13		
	175 2		Dry	3.00	34 Ratnavathi	..	0.55		
	179 1		Dry	1.68	34 -do-	..	0.01		
	2		Paramboke	5.95	Grazing Ground	..	0.72		
	262 1		Dry	4.60	A.W.	..	0.40		
	103 1		..	854.16	A.W.	..	0.62		
	262 2		..	3.30	Spl. 25 Narasimha Hedge	..	0.94		
	76 1		..	0.86	104 Jagathapala Shetty	..	0.28		

SCHEDULE OF LAND PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM MALLESWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON ORE PROJECT

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkala

Name of the Village : No. 70 Valpadi

Sl. No.	Field Survey Number	Sub Div. Nos.	Classification of land	Total area of the Sub Div.	Name of the Registered Holder (Pat-tadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	188	13	Dry	2.42	Nagaraja Shetty		0.75		
2	122	2	Dry	0.66	-do-		0.36		
3	122	1	Dry	3.48	-do-		0.15		
4	122	3A	Poru	0.68	P.W.D. Head		0.70		
5	20	5	Wet III	1.57	Nagaraja Shetty		0.70		
6	20	4	Wet III	4.06	D. Veerendra Hedge		0.08		
7	135	1	Garden	0.38	Nagaraja Shetty		0.08		
8	185	2	Dry	0.12	D. Veerendra Hedge		0.08		
9	20	6A	Wet III	0.33	Nagaraj Shetty		0.09		
10	20	6B	Wet III	0.38	Chaluvamma		0.23		
11	20	6C	Wet III	3.98			0.90		
12	20	6D	Wet III	0.28	Chaluvamma		0.02		
13	20	6E	Wet III	0.44	Nagaraj Shetty		0.28		
14	195	4A	Dry	1.04	Mouriah Sathu Maiyoor		0.18		
15	195	5A	Dry	0.55	Duggu		0.28		
16	195	5B	Dry	0.76	Thaniyaru		0.23		
17	158	2	Garden	0.72	-do-		0.20		
18	239	6	Dry	0.27	Nagaraj Shetty		0.13		
19	19	2B	Wet I	1.06	Thaniyaru		0.04		
20	19	1	Wet I	0.45	Nagaraj Shetty		0.30		
21	139	1	Dry	0.90	Thaniyaru		0.60		
22	139	6	Dry	0.90	Bagi		0.65		
23	30	1	Wet I	0.24	Basana Beacy		0.09		
24	30	2	Wet I	0.82	Shirtheady Arjun Pura	Devaru	0.20		
25	115	..	Garden	1.88	D. Veerendra Hedge		0.45		
26	299	..	Dry	6.20	A.W.		1.30		
27	106	2	Dry	2.43	Bagi Hengsu		0.99		
28	106	3	Dry	0.14	Nagaraj Shetty		0.01		
29	106	4	Dry		0.36		
30	212	2	Dry	2.79	A.W.		0.04		
31	212	1	Dry	3.74	Saimon Rodricks		1.20		
32	212	3	Dry	2.39	Jannappa Shetty		0.75		
33	211	1	Dry	2.92	Salmon Rodricks		0.03		
34	211	2	Dry	2.33	A.W.		0.20		
35	302	1	Dry	13.76	A.W.		2.03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	38	1	Wet III	2.69	D. Veerendra Hedge		0.38		
37	38	2	Wet I	2.87	Do.		0.60		
38	38	4	Wet III	1.89	Do.		0.70		
39	132	1	Dry	229.82	A.W.		1.21		
40	191	..	Dry	6.30	D. Veerendra Hedge		0.41		
41	42	3	Wet II	1.61	Do.		0.23		
42	42	4	Wet II	0.11	Chhandrawathi		0.08		
43	43	1	Por	0.90	Thodu		0.20		
44	43	8	Wet II	1.61	Dooja Mingal Nazarath		0.20		
45	43	2	Wet II	1.76	Do.		0.72		
46	43	3	Wet II	5.13	D. Veerendra Hedge		0.01		
47	269	4	Dry	1.10	A.W.		0.08		
48	44	1	Wet III	0.76	Chhandravathi		0.38		
49	44	3		0.51		
50	269	1	Dry	5.24	Chandravathi		0.03		
51	269	3	Dry	0.56	Muthakka Regadathi		0.05		
52	163	..	Dry	4.57	Appi Hegadthi and others		0.68		
53	44	2	Wet II	3.43	Appi Hegadthi		0.38		
54	172	..	Dry	321.81	A.W.		0.99		
55	227	1A	Dry	0.20	A.W.		0.01		
56	232	3	Dry	0.58	A.W.		0.15		
57	232	4	Dry	1.02	Muthakka Hegadthi		0.54		
58	232	5	Dry	1.18	Venkappa Hedge & others		0.23		
59	59	2	Wet I	0.84	Gummada Poojari		0.26		
60	59	1	Wet I	1.00	Menamma Alias		0.10		
61	59	10	Por	0.10	Appi Hegadthi Paro		0.04		
62	59	11A	Wet III	1.08	Padma Hegde		0.18		
63	59	12	Wet III	0.34	Menamma Alias Api Hegadthi		0.15		
64	55	..	Dry	4.08	A.W.		0.55		
65	56	1	Wet III	1.16	Muthakka Hegadthi		0.01		
66	56	2	Wet III	2.38	Kumar Shetty		0.02		
67	58	..	Wet III	4.05	Padma Hegde		0.01		
68	142	1	Dry	1.38	A. W.		1.10		
69	107	..	Dry	1.34	Chandranath Devaru		0.30		
70	253	..	Dry	8.50	A.W.		0.30		
71	63	2	Garden	0.27	SUMATHIAMMA		0.06		
72	63	1	Wet III	7.93	Do.		1.36		
73	132	..	Dry	139.00	A.W.		0.38		
74	86	1	Wet III	19.58	S. Veerendra Hedge		1.88		
75	87	2A	Dry	38.23	A.W.		2.50		
76	89	12	Dry	0.32	Anthoni Souza		0.28		
77	89	1	Wet III	1.80	Do.		0.38		
78	89	9	Garden	0.29	Do.		0.08		
79	89	10	Do.	0.21	Do.		0.01		
80	168	1	Dry	0.38	Sumithiyamma		0.04		
81	168	2A	Garden	0.35	Pelex M.D.'Souza		0.28		
82	168	2B	Wet III	0.27	Do.		0.22		
83	90	1	Wet I	1.59	Sumatkiyamma		0.04		
84	91	2	Wet I	4.15	Do.		0.95		
85	91	5	Por	0.14	THODU		0.07		
86	92	2	Wet III	1.00	Pelex M.D.'Souza		0.40		
87	155	..	Garden	1.61	Do.		0.45		
88	182	1A	Dry	4.33	D. Veerendra Hegde		0.20		
89	182	1B	Dry	1.32	Kariyadu Chaluvama		0.18		
90	98	1	Dry	1.18	D. Veerendra Hegde		0.35		
91	98	2	Wet I	2.28	Do.		0.30		

**SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM
MALLESHWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON ORE
PROJECT**

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkala

Name of the Village : V. No. 69, Moodu Konaje

Sl. No.	Field Survey Number	Sub. Div. Nos.	Classification of land	Total area of the Sub-Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the Plots to be acquired	Remarks
1	3	1	Pro	50-20	River		0.23		
2	99	..	Dry	28-55	A.W.		1.68		
3	198	3A	Dry	0.20	A.W.		0.04		
4	198	3B	Dry	2.80	Chandrakala Bhatta		0.60		
5	198	3C	Dry	2.82	Subakara Bhatta		0.51		
6	99	..	Dry	28-55	A.W.		0.23		
7	156	1	Dry	4.96	Venkamma Shedthi		1.14		
8	156	2	Dry	4.44	A.W.		0.19		
9	80	2	Dry	0.87	Venkappa Kella		0.55		
10	80	1	Dry	1.35	A.W.		0.80		
11	38	2	Wet I	0.63	Venkappa Kella		0.12		
12	38	1	Wet I	2.09	Ammanni Shedthi		0.75		
13	102	..	Dry	38-61	A.W.		0.01		
14	39	1	Wet III	3.15	Ammanni Shedthi		0.87		
15	107	..	Dry	5.08	A.W.		0.60		
16	46	4	Wet III	0.87	Raju Kella		0.24		
17	46	8B	Garden	0.43	Raju Kella		0.20		
18	46	3	Wet III	0.65	Sunanda Devi		0.18		
19	46	15	Wet III	0.81	Ammanni Shedthi		0.34		
20	46	1	Wet III	1.15	Padmavathi		0.40		
21	46	2	Dry	0.29	A.W.		0.12		
22	48	14A	Wet III	2.50	Raju Kella		0.10		
23	51	7	Wet III	0.25	M. Venkatesh Bhatta		0.24		
24	51	2	Wet III	8.03	Kanthy Kella		0.86		
25	47	..	Dry	15.90	A.W.		0.63		

**SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM
MALLESHWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON
ORE PROJECT**

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkala

Name of the Village : 65, Padukonaje

Sl. No.	Field Survey Number	Sub. Div. Nos.	Classification of land	Total area of the Sub. Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the Plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	31	3	Por	0.89	Thodu		0.07		
2	31	2	Wet I	0.88	Nemiraja Kadambar & Others		0.34		
3	31	1A	Wet I	1.26	Chandra Raja Kadambar		0.41		
4	31	1B	Wet I	2.50	Nemiraja Kadambar		0.33		
5	30	1	Wet III	6.14	Siddamma Shedthi		1.15		
6	30	2	Wet III	0.38	Do.		0.11		
7	78	1	Dry	582.86	A.W.		0.89		

1	2	4	5	6	7	8	9	10
8	83	7	Dry	0.81	Chenna Berra	0.22		
9	83	8	Dry	0.81	Poonkra	0.03		
10	83	6	Por	0.17	Foot Path	0.04		
11	83	1B	Dry	0.87	Chinga Nalk	0.04		
12	83	2	Dry	0.89	Babu Nalk	0.21		
13	83	3	Dry	0.86	Mera Cheenkra	0.27		
14	83	4	Dry	0.84	Guruva	0.26		
15	83	5	Dry	0.79	Beera	0.26		
16	110	1A	Dry	1.45	Yemiliyar Flexive Menezes	0.44		
17	110	1B	Dry	1.45	Jinaraja Hegde	0.17		
18	36	2A	Wet III	0.25	Do.	0.02		
19	40	3A	Dry	1.09	Gunapal Hegde & Others	1.12		
20	40	3B	Dry	1.41	Jinaraja Hegde	0.12		
21	40	2	Por	3.04	Road	0.41		
22	40	1C	Dry	2.25	Anantha Raja Hegde	0.32		
23	43	4A	Wet III	3.00	Bojaraja Hegde	0.66		
24	43	4B1	Wet III	0.55	Boni Pas S. Menezes	0.20		
25	43	4B2	Wet III	3.04	Laxminathi	0.02		
26	42	7	Wet III	3.76	Nemiraja Kella	0.90		
27	42	1A	Wet III	2.72	Do.	0.91		
28	42	6	Wet I	0.21	Do.	0.05		
29	99	..	Dry	5.72	A.W.	0.43		
30	42	4	Garden	0.32	Varadraya Kamath & Others	0.05		
31	94	3	Wet III	1.25	Manjappa Poojari	0.40		
32	94	4	Dry	0.49	A.W.	0.33		
33	46	2	Dry	3.10	Appi Alias Padma-vathi	0.25		
34	46	1B	Dry	7.54	A.W.	0.78		
35	46	10	Dry	0.26	Adakka	0.17		
36	46	1A	Dry	1.22	Perne, Doomabe Hengsu	0.07		
37	47	4	Wet III	4.04	Adakka, Kanthukalla	0.60		
38	92	3	Dry	4.20	Kantha Kella	1.16		
39	92	2	Dry	1.78	Venkappa Kella	0.02		

SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM MALLESWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMPUR FOR KUDREMUKH IRON ORE PROJECT

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkala

Name of the Village : Kallabettu No. 66

Sl. No.	Field Survey Number	Sub. Div. Nos.	Classification of land	Total area of the Sub. Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the Plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	1 A/3	Dry	3.28	Krishnappa	..			
2	10	1/B	Dry	1.07	Krishnappa	..			
3	10	1 C	Dry	0.07	A.W.	..			
4	10	1 D	Dry	1.07	Kunchappa	..			
5	10	1A5B	Dry	2.00	Chandu Maistry	..			
6	10	1A5A	Dry	6.08	A.W.	..			
7	9	1	Dry	5.66	A.W.	..			
8	9	2	Dry	11.62	Grazing Ground (A.W.)	..			
9	3	1	Dry	15.18	A.W.	..			
10	3	2	Dry	0.92	M.R. Hasanabba	..			
11	5	6	Nanja III	2.35	Shivadevi	Bhahubali Prasad			
12	5	1A	Nanja I	0.36	do.	do.			
13	4	1B	Dry	4.98	do.	..			
14	35	14	Nanja I	0.20	Gwari Sheddhy	..			
15	32	..	Dry	3.47	A.W.	..			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	35	10	Nanja III	0.88	Gwari Shedthy				
17	35	16	Garden	0.07	Do.				
18	35	17	Nanja I	0.38	Do.				
19	35	11	Garden	0.61	Do.				
20	35	18	Garden	0.11	Do.				
21	35	20	Kanja I	0.46	Do.				
22	35	19	Kanja II	0.11	Adhu Shedthy				
23	35	4	Nanja I	0.47	Ramanna Shetty				
24	35	3	Nanja I	0.67	Adhu Shedthy				
25	35	1	Nanja I	6.94	Ramanna Shetty and others				
26	208	1	Dry	0.42	Adiraja Shetty				
27	52	3	Garden	0.17	Chandramathi Amma				
28	36	1	Dry	2.47	Do.				
29	54	2	Nanja III	2.80	Maine Hegadthi				
30	54	1	Nanja III	2.99	Korapolu Hegadthi				
31	60	1	Nanja III	5.10	Axamala	Shama Achari			
32	58	1	..	0.58	A.W. Chenale				
33	58	8	Nanja I	0.41	Maire Heggadthy				
34	58	3	Nanja I	0.77	Do.				
35	64	5	Nanja I	0.88	N. Ahalya	Lingappa Devadiga			
36	64	4	Nanja I	0.47	Krishnamma	Dadu Poojari			
37	64	10	Nanja I	0.12	Do.	Do.			
38	64	11	Nanja I	0.09	Axamala	Shama Achari			
39	64	9	Nanja I	0.22	Do.	Aithappa Poojari			
40	64	3	Nanja I	0.25	Vittappa Naiyk	Booba Poojari			
41	64	8	Nanja I	0.11	Axamala	Aithappa Poojari			
42	64	7	Nanja I	0.37	Vittappa Naiyk	Booba Poojari			
43	64	2	Nanja I	0.88	Axamala	Shama Achari			
44	64	1	Nanja I	0.72	Vrashabhasend	Aithappa Poojari			
45	65	1	Nanja I	2.23	Do.				
46	65	3	..	0.44	A. W. Chenal				
47	67	2	Nanja I	3.46	Vittappa Naiyk	Booba Poojari			
48	67	1	..	0.29	A. W. Chenal				
49	66	6	Nanja	1.49	Krishnamma	Chandu Poojari			
50	66	5	Nanja	1.19	N. Ahalya	Lingappa Devadiga			
51	66	1A	Nanja	1.61	Gopal Salyane				
52	66	1B	Nanja	1.55	Krishnamma	Dadu Poojari			
53	208	2	Dry	3.13	Dogu Shety	..			
54	127	1A	Dry	19.46	A. W.				

SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM MALLESHWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON ORE PROJECT

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkala

Name of the Village : 67 Karanje

Sl. No.	Field/ Survey Number	Sub-Div. No.	Classification of Land	Total area of the Sub-Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	the Extent of the survey No. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	201	1	Dry	4.34	K. Lohidasa, Krishnabai	M.	..	0.35	Mango Trees, Compound Wall.	
2	2	1	Dry	4.44	Annappyya		..	0.01		
3	76	3A	Dry	0.08	Annappayya		..	0.01		
4	76	2	Dry	3.52	Main Road G		..	0.20		
5	193	4A	Dry	0.07	Road Margin		..	0.05		
6	123	1	Dry	1.80	Shashikala Bai	Lodru Pirera		0.48		
7	123	2	Dry	1.40	Sharada Bai & Tara Bai	„ „		0.48		
8	193	2	Dry	0.46 } 2.90 }	Uma Sundari	Mary D'Souza		0.08		
9	193	3	Dry	4.40	Do.	Do.		0.67		
			Wet	0.50						
10	106	1	Dry	3.40	Do.	Do.		0.23		

**SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM
MALLESHWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON ORE PROJECT**

Name of the District: South Kanara

Name of the Taluka: Karkal

Name of the Village : 59 Prantya

Sl. No.	Field/ Survey Number	Sub- Div. No.	Classifi- cation of land	Total area of the Sub- Div.	Name of the Regis- tered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the survey no. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100	2A	Dry	13-28	A.W.	..	1-56		
2	100	2B	Dry	0-31	Spl. 121-J.R. Vas	..	0-04		
3	100	1	Dry	1-80	1 95 Marku Kadthose	..	0-09		
4	214	1	Dry	5-12	A.W.	..	1-14		
5	209	1	Dry	2-20	45 M Venkataraya Mallya		0.65		
6	209	2A	Dry	2-72	Peter Dona Nazareth	(H.No. yet to be assigned)	0-57		
7	209	2B	Dry	0.34	Spl. 121 J.R. Vas		0-05		
8	172	..	Dry	3-86	45M Venkataraya Mallya		0-01		
9	73	1A	Dry	1-90	A.W.		0-31		
10	73	1B	Dry	3-74	56 Padmavathi Madthi		1-11		
11	73	1C1A	Dry	0-90	377 G., Sheekabba-1 Abbubakkar-2		0.09		
12	76	2	W III	2-44	Muthu Hengsu		0-57		
13	76	1	W III	2-26	103 Usaf Saheb		0-06		
14	76	3	W III	1-62	76 C.M. Coveas & Dr. G. Goveas		0-50		
15	77	1	W III	5-75	94 Padmavathi Shed- thi		0-72		
16	77	22	Garden	0-20	Do.		0-01	One thatched house & shed.	
17	72	4	W III	1-91	100 Chennamma, Laxmana.		0-36		
18	72	5	G	0-13	100 Chennamma Laxmana		0-02		
19	72	3B	Paramboke	0-24	Thodu		0-08		
20	72	2	W III	0-46	56 Padmavathi Shedthi		0-08		
21	72	1	W III	0-33	94 Do.		0-28		
22	71	5A	W III	6-70	39 Monappa Poojari		1-43		
23	64	1A1A	Dry	3-04	A. W.		0.05		
24	64	1A1B1	Dry	1-44	A. W.		0-14		
25	208	4	Per	1-18	Road		0-27		
26	208	1	Dry	1-25	168 B.M. Rajaram		0-05		
27	208	2	Dry	2-12	151 T.B. Sanitorium, Director		0-70		
28	208	3	Dry	0-88	80 Panduranga Prabhu		0.53		
29	113	..	Dry	6-47	390 Gopalalaxman Prabhu		0-03		
30	63	102	Dry	1-66	Panduranga Prabhu		0.23		
31	180	1	Dry	2-98	80 Do.		0.01		
32	180	2	Dry	0-45	98 Eliza D' Souza		0-01		
33	63	3	Dry	0-19	390 Gopalalaxman Prabhu		0-15		
34	131	..	Dry	7-30	393 John D' Souza		1-25		
35	204	1	Dry	0-15	393 Do.		0-03		
36	204	2B	Paramboke	2-70	Grazing Ground		1-20		
37	204	2A	Dry	2-93	Mahaveera Vidya Vardaka Sangha, Moodbidri		0.35	(Compound wall)	
38	227	2A	Dry	4-14	Do.		1-39	Portion of Vidyarthini Nilaya Building and Compound)	
39	227	2B	Paramboke	1-26	Grazing Ground		0-14		
40	187	6	Dry	1-25	Road		0-14		
41	64	1A1C	Dry	0-49	Spl. 60 Damodar Kamath		0.02		
				2-60	317 Peter Richard		0-60		

SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM MALLESHWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON ORE PROJECT

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkala

Name of the Village : 58 Hosabettu

Sl. No.	Field Survey Number	Sub-Div. Nos.	Classification of law	Total area of the Sub-Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks
1	122	..	Dry	5-50	30 Francis D' Souza	Brijegh Paresa	0-36		
2	152	2D2	Paramboke	2-21	Govt. Road	..	0.09		
3	123	1A	Dry	1-93	73 Gopalakrishna Mallya & Brighith Kasa Bai	..	0.07		
4	123	1B	Dry	1-92	19 Lucy Govas	..	0-74		
5	144	1B	Dry	3-93	154 Panduranga Mallya	..	0-75		
6	84	1	Dry	2-20	149 Alex Pinto	..	0.03		
7	144	2	Dry	4-75	154 Panduranga Mallya	..	0.38		
8	203	6A	Dry	2.69	(Govt. A.W.)	..	0.36		
9	203	6C	Dry	0.56	Spl. 49 Namaya Poojary	..	0.06		
10	203	3	Dry	3.54	Spl. 23 Sanjeeva Poojary	..	0.75		
11	203	4	Dry	1.54	(Govt. A.W.)	..	0.30		
12	203	5	Dry	1-96	Spl. 25 Kittanna Achary	..	0.33		
13	108	1	Dry	883.27	(Govt. A.W.)	..	2.10		

SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM MALLESHWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON ORE PROJECT

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkal

Name of the Village : 50 Puthige

Sl. No.	Field/ Survey Number	Sub-Div. No.	Classification land	Total of area of the Sub-Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	492	1	Dry	2.14	448 Monthinari D' Souza		0.13		
2	492	2	Dry	2.60	Spl. 141 Raimon Thosha	Raimond Thosha	0.62		
3	491	1	Dry	5.00	304 Chanru Hengasuru		0.99		
4	491	2	Dry	1.02	308 K.M. Lakshmana		0.09		
5	267	1B	Dry	1.33	431 Karthrina D' Souza		0.10		
6	267	1A	Dry				0.35		
7	267	2A1	Dry	0.14	431 Do.		0.09		
8	267	3A1	Dry	0.11	431 Do.		0.08		
9	267	3B	Dry	0.38	(Govt.)		0.09		
10	267	3C	Dry	1.20	277 Dharmavathi Beni D'Souza		0.14		
11	343	..	Dry	7.19	227 Do.		0 50		

**SCHEDULED OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM
MALLESHWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON ORE
PROJECT**

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkala

Name of the Village : 55 Thodur

Sl. No.	Field/ Survey Number	Sub-Div. Nos.	Classification of land	Total area of the Sub-Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the Plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	152	3	Dry	8.91	11 Sri Kushmandini	Vittal Shetty	2.01		
2	128	3	Dry	5.75	11 Do.	Doddaiya Shetty	1.20		
3	151	..	Dry	3.40	49 Lingu Hengsu	..	0.10		
4	123	1	Dry	5.61	(Govt. A.W.)	..	1.05	Proposed for 0.05 House sites	
5	115	1	Dry	5.58	69 Khatljabl	..	0.39		
6	36	1	W III	8.31	69 Do.	..	0.90		
7	41	..	Dry	15.22	(Govt. A.W.)	..	0.49	A.W.	
8	40	3	Garden	0.50	62 M.A. Abdul Khadar etc.	..	0.05		
9	40	2	W III	7.62	62 Do.	..	1.90		
10	42	4	W I	1.67	11 Sri Kushmandini	Kusa Sapaliga	0.90		
11	48	10	Paramboke	0.82	(Govt.)	..	0.01	Thodu	
12	47	3	W I	1.15	42 Dr Venugopal Shetty	Raju Madivale	0.27		
13	42	2	W I	0.82	12 Thodau Kodamanttya	Bara Shetty Jaratty	0.38		
14	48	1	Poramboke	1.13	(Govt.)	..	0.11	Thodu	
15	48	2	W I	1.89	42 Dr. Venugopal Shetty	Raku Shetty	0.30		
16	48	5	W III	34.58	78 Do.	..	0.02		
17	48	20	Garden	0.23	42 Do.	..	0.02		
18	48	3	W I	0.448	75 Do.	..	0.02		
19	48	21	Dry	0.95	42 Do.	..	0.37	Thatched House	
20	49	1	W III	3.7	42 Do.	Kujar K. Narayan Shetty	1.43		
21	49	8	W II	1.49	42 Do.	.. & Handre Harljana	0.10		
22	49	5	Poramboke	1.20	(Govt. Thodu)	..	0.06	Thodu	
23	56	3	W III	3.12	74 Ramanna Chin-nakka Suvana	Girija Poojari	0.24		
24	56	1	Poramboke	0.56	(Govt. Thodu)	..	0.18	Thodu	
25	55	2	W I	0.35	74 Ramanna Chin-naka Suvana	Girija Poojari	0.24		
26	57	8	Poramboke	1.38	(Govt. Thodu)	..	0.18	Thodu	
27	55	4	W I	0.64	36 Nakku Shedthi Raju Shetty	Nakku Shedthi	0.46		
28	55	3	W I	0.49	74 Ramanna Chin-nakka Suvana	Appu Gowda	0.11		
29	58	3	W I	0.72	79 Girija Shedthi Narayana Shedthi	Girija Shedthi	0.33		
30	58	7	W I	0.92	36 Nakku Shedthi Raju Shetty	Kalani Shedthi	0.16		
31	58	9	W I	1.19	79 Girija Shedthi Narayana Shetty	Girija Shedthi	0.69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	58	4	W III	5.42	80 Dr. Venu Shetty & 2 Members	Girija Shedthi & Others	0.05	House	
33	25	1	W I	1.31	4 Thimmappa Shedthi Kalyani Shedthi	Kalyani Shedthi	0.75		
34	25	5	Garden	1.10	4 Do.	Do.	0.04		
35	25	2	W I	0.91	4 Do.	Do.	0.12		
36	24	9	W I	0.65	9 M.D. Ramanna Shetty & Others	M.D. Ramanna Shetty & Others	0.08		
37	24	3	W I	6.20	9 Do.	Do.	1.05		
38	24	5	Dry	0.74	9 Do.	Do.	0.52		
39	24	2	W III	9.73			0.67		
40	106	..	Dry	48.35	(Govt. A.W.)		1.86	A.W.	
41	20	..	Dry	1.10	(Govt. A.W.)		0.30	A.W.	
42	153	2	Dry	1.80	9 Rama Shetty		0.26		
43	153	4	Dry	0.70	3 Megdalina Santosbai		0.26		
44	153	4	Dry	2.35	52 Caustina Talis Megdalina Santosbai		0.54		
45	21	4	W I	0.12	3 Megdalina Santosbai		0.08		
46	21	3B	Garden	0.81	3 Do.		0.13		
47	21	5	Garden	0.42	3 Do.		0.35		
48	21	1	W III	0.20	3 Do.		0.17		
49	17	1	Dry	15.60	Govt. A.W.		0.09	A.W.	
50	18	1	Dry	3.52	Spl. 19 Raku Devi		1.65		
51	18	2	Dry	12.48	(Govt. Grazing Ground)		0.19	Grazing Ground	
52	19	..	Dry	7.56	(Govt. A.W.)		0.45	A.W.	
53	193	4	Dry	1.01	(Govt. A.W.)		0.54	A.W.	
54	193	3	Dry	2.34	Spl. 52 Raimond D'Costa		0.29	Pump House Well	

SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM MALLESHWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON ORE PROJECT

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Karkal

Name of the Village : Tenkamijar

Sl. No.	Field/ Survey Number	Sub Div. No.	Classification of land	Total area of the Sub. Div.	Name of the Registered Holder (Pattadara)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	293	1	..	130.43	A.M. Kumti	..		Tiled houses 3 encroached	
2	83	..	Dry	7.06	Gowri Janardhana Achar etc.	..	1.48	Paddy field—Coconut plants etc.	
3	87	1	Wet I	0.82	Lewis Mendouse 7 Members	..	0.16	Paddy field Areca-Coca etc.	
4	87	2	Wet I	0.71	M. Vittal Pai etc.	..	0.28	Paddy field Coca plants	
5	88	7	Wet I	2.75	Do.	..	1.32	Do. Do. Tank	
6	335	3		62.91	A.W.	..	0.40		
7	298	2	Dry	1.82	Chennamma Hengser	..	0.52	Cashew Plants—Thatched House	
8	298	1	Dry	0.68	Ammu Gowda	..	0.45	Cashew Plants Paddy field	
9	298	4	Dry	2.56	Korgya Gowda	..	0.04	Mango trees	
10	298	3	Poramboke	0.02	Road	..	0.02	Road	
11	139	4	Do.	0.19	A.W.	..	0.02		
12	143	..	Dry	8.34	Benedict Rodrigues	..	0.94	Cashew Jack etc.	
13	142	..	Dry	64.75	Moodabirdi Koosha-manthai Math Sarur Rodrigeris	..	0.82	Cashew, Paddy field Jack trees and tiled house.	
14	90	..	Dry	8.08	Serurni John D'Souza		1.60	Coconut	
							0.69		
15	198	..	Dry	6.17	Kumuda Rajathunga	Konaga Shettigar	0.89	..	
16	110	1	Dry	3.18	Markar D'Souza	..	0.10	Cashew	
17	110	3	Dry	3.58	Geevan D'Souza	..	0.82	Cashew	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	110	2		2.00	A.W.	..	0.60		
19	171	2		3.46	A.W.	..	0.40		
20	166	1		268.44	A.W.	..	8.50		
21	156	1		13.75	A.W.	..	2.25		
22	291	..	Dry	4.33	Vi D'Souza & G.B. D'Souza	..	0.91	Cashew	
23	196	..	Dry	4.29	Do.	..	0.76		
24	197	..	Dry	6.24	K. Venkanaya	..	0.11		
25	118	1	Dry	4.20	Shanku Bhandary		0.88	Cashew, Mango Trees	
26	118	2	Garden	0.19	Do.		0.07	Jack Trees	
27	24	15	Wet III	0.54	Do.		0.40	Paddy Field, Cashew	
28	24	7	Wet III	2.43	Do.		0.03	Thatched House Jack trees	
29	24	2	Wet I	12.68	Do.		0.04	Paddy field	
30	24	3	Wet I	1.32			0.02		
31	321	1		11.20	A.W. Kumti		0.030		
32	23	8	Wet III	1.06	Parshwanath Temple	Lingamma Shedthi	0.27	Paddy Field	
33	23	1	Wet III	1.65	Do.	Do.	0.66	Do.	Thatched House
34	23	5	Wet I	2.37	Do.	Do.	0.06	Do.	
35	23	4	Wet III	0.87	Do.	Do.	0.14	Do.	
36	23	7	Poramboke	0.32	Poramboke Thodu		0.10	Do.	
37	20	4	Wet III	1.08	Jamku Bhandari		0.48	Do.	
38	20	1	Wet I	1.03	Do.		0.20	Do.	
39	21	16	Wet I	1.21	K. Leelavathi Shedthi		0.30	Do.	
40	21	15	Dry	0.06	Do.		0.05	Coca-Trees	
41	21	17	Garden	0.30	Do.		0.04	Mango, Jack, Coco Trees	
42	21	10		2.37	Paramok Thodu		0.15		
43	155	2	Garden	0.37	K. Leelavathi Shedthi		0.01	Vacant	
44	155	1A		17.58	D.W. Kumki		1.50		
45	113	1	Dry	32.84	Dr. Santosh Kumar		0.11	Coco, etc.	
46	272	8A	Dry	0.06	Vishwamurthi Temple		0.04	Road	
47	272	8B	Dry	0.44	Pakura		0.10	Pakka House	
48	272	9B1	Dry	0.14	Parameshwar Naik		0.13	Coca, Mango, Jack Trees	
49	272	9B2	Dry	0.15	Vishnu Temple		0.15	Road	
50	272	9B2	Dry	0.13	Parameshwar Naik		0.18	Tiled Pakka House	
51	272	10	Poram-boke	0.08	A.W. Road		0.05		
52	272	9A		0.05	Por Road		0.08		
53	272	11	Dry	0.63	Parameshwar Naik		0.04	Coco, Well etc.	
54	13	2	Dry	0.18	Vishwamurthi Temple		0.18	Road	
55	13	1	Dry	1.44	Sundari Amma		0.19	Coco Plant	
56	13	3	Dry	0.13	Do.		0.12	Do.	
57	185	1A1	Dry	5.00	Do.		0.42	Do.	
58	185	1A1	Dry	0.38	Vishwamurthi Temple		0.38	Road	
59	185	1A3	Dry	5.69	Sundari Amma		0.46	Coconut plants, etc.	
60	185	1A4	Dry	0.06	Vishwamurthy Temple		0.06	Road	
61	185	1B	Dry	0.29	Co-operative Society Myas		0.18	Building etc. tiled	
62	112	A2	Dry	0.57	Gopal Krishna Pal etc. 3 members		0.08	Do.	
63	112	AIC		6.75	Por Road		0.48	Pakka tiled Hotel	
64	119	3	Dry	0.49	M.A. Shikh		0.01	Coconut trees	
65	119	16	Dry	0.48	Sayed Ali Beary		0.15	Tiled Pakka Building 3	
66	119	16	Dry	0.30	Papama Bearthi		0.18	Do.	
67	119	5	Dry	0.50	Manu Beary		0.16	Coconut Plants.	
68	119	6	Dry	0.50	Sayed Ali Beary		0.12	Do. tiled Buldg.	
69	119	17		0.35	A.W. Road		0.20		
70	119	18	Dry	0.18	Moidin Beary		0.07	Coco trees Tiled Buldg.	
71	285	1A	Dry	0.08	Gopal Naik		0.03	Tiled Building	
72	285	1E	Dry	2.06	Vitappa Naik		0.68	Well and Vacant	
73	285	1C	Dry	1.08	Lingappa Gowda		0.56	Cashew Plant etc.	
74	285	1F	Dry	0.96	Baily Bal		0.56	Cashew Plant	
75	285	18		0.32	A.W. Road		0.02	..	

**SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM
MALLESHWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON
ORE PROJECT**

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Mangalore

Name of the Village : Kompadavu

Serial No.	Field/ Survey Number	Sub- Div. Nos.	Classifica- tion of land	Total area of Sub-Div.	Name of the Regis- tered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the Survey No. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	153	1	Dry	0.49	73 Basappa Athera	Basappa Athaware	0.22	Coconut 2, Jack tree 3	
2	77	6	Garden	1.29	73 Do.	Basappa Athare	0.23	Cashew Nut trees 5	
3	77	7	Dry	0.07	74 Sankaranarayana Malla	Gowramma W/O Narayana	0.07	Cashew tree	
4	77	1	Dry	2.25	74 Do.	Do.	0.21	Firewood	
5	71	2	Dry	4.61	13 Thimmaju Hengsu	Thimmaju W/O Kavy	1.20	Cashewnut & Fire Wood	
6	71	1	Dry	2.24	13 Do.	Do.	0.65	Cashewnut & Fire wood trees.	
7	29	2	Wet II	2.24	14 Sudakar Venkat Rao	Do.	0.30	Arecanut Trees 25	
8	77	4	Dry	0.30	240 Rame Bai	Rama Bai W/O Koraga	0.10	Cashewanut Plan- tation	
9	121	1	Dry	1.30	141 Sethu Alias Thungamma	Lingappa Cowda	1.25	(i) Thatched house and Well & That- ched shed, Jack Trees-2, Mango-1, Tamarind tree 3, Coconut trees-2, Jack Plant-1, Banana Plantation.	
10	30	6B	Wet I	0.37	1 Krishnaya Shan- bhogue	A.G. Shanbhogue	0.03	Paddy field	
11	30	10	Wet I	0.88	Devanna Bhat	Narayana Gowda	0.01	Do.	
12	30	6A	Wet I	0.26	A.G. Shaqbhogue	Seethamma & Tham- manna	0.02	Do.	
13	30	1		0.02	Narayanappayya	Balachanda	0.02	Vacant	
14	30	9	Garden	0.02	Ramappa Neelakanta	Ramappa	0.02	Coconut trees 2	
15	30	6	Garden	0.03	Krishnaya Shan- bhogue	Seethamma, Tham- manna	0.03	Jack trees 3	
16	30	7	Bagayath	0.0	A.G. Shanbhogue	Do.	0.03	Coconut trees 3 Mango trees 2	
17	30	5	Wet I	0.19	Ramappa & Neelkanta	Gopala S/O Narayana	0.05	Paddy Field	
18	30	4	Wet I	0.31	A.G. Shanbhogue	Seethamma & Thammarina	0.12	Do.	
19	30	3	Wet I	0.38	Ramappa & Neela- kanta	Gopala Gowda	0.16	Do.	
20	30	2	Wet I	0.44	Putta & Thamma Shanbhogue	Seethamma, Tham- manna	0.21	Do.	
21	30	11	Garden	0.05	Ramappa, Neela- kanta	Ramappa	0.01	Jack tree 1	
22	32	2	Wet II	1.26	Bheemaraja, Bhu- jaraja (Rukmini)		0.42	Paddy field	
23	32	1	Wet I	1.00	Viswanatha & Shanker	Viswanatha & Shan- kar	0.25	Do.	
24	34	30	Wet I	1.18	Appu Gowda	Appu Gowda	0.17	Paddy field Coconut 2	
25	34	29	Wet I	0.93	Puttanna Shanbho- gue & Others	Puttu Gowda, A.G. Shanbhogue	0.10	Do.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	253	2	Garden	0.75	Vishwanath & Others	Viswanath & Others	0.40	Jack tree, pump house, Tiled residential house, thatched shed	
27	253	5	Garden	0.45	Ramappa	Ramappa	0.05	Thatched residential House	
28	253	3	Garden	0.10	Vishwanath & Others	Vishwanath & Others	0.10	Jack trees 2	
29	253	1	Garden	0.06	Vishwanath, Shanker & others	Vishwanath, Shanker	0.06	Well-1	
30	35	6	Wet III	0.12	Vishwanatha, Shanker	Vishwanatha, Shanker	0.09	Water tank & Coconut trees-6	
31	35	2	Wet III	1.18	Do.	Do.	0.40	Paddy field	
32	35	4	Garden	0.09	Do.	Do.	0.05	Jack trees-2	
33	252	1	Garden	0.22	Vishwanath and Others	Vishwanatha & Others	0.22	Do.	
34	252	2	Dry	7.23	Do.	Do.	1.05	Firewood trees	
35	251	1	Dry	5.21	M.S. Shetty	M.S. Shetty	1.10	Firewood trees Cashew plants	
36	95	2	Dry	4.89	Srinivas Ballal, M.S. M.S. Shetty, Appu Gowda	Gangayya Nailk M.S. Shetty, Appu Gowda	1.125	Firewood, Cashew trees-2	
37	162	—	Dry	4.52	Ammu Gowda, Sesappa Gowda	Ammu Gowda, Sesappa Gowda	0.50	Cashew trees 2	
38	254	1	Dry	0.94	Sesappa Gowda, Appu Gowda and Others	Sesappa Gowda, Appu Gowda, M.S. Shetty, Ammu Gowda	0.15	Firewood trees	
39	195	2	Dry	9.25	Robert D. Fernandez	Robert D. Fernandez	0.06	Cashew Plant trees 5	

SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE SLURRY PIPELINE OF KUDREMUKH IRON ORE PROJECT

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Mangalore

Name of the Village : 41 Paduperar

Serial No.	Survey S.D. No.	Total Extent	Klsan Classifications	Name of the Registered Holder	Name of the Tenant	Extent covering	Improvements	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4-1	1-43		Sayad Hasan Sahib Gurukumbala		0.50		
2	4-2	3-06		Abdul Khar Sahib Korakumbala		0.04		
3	96-2	11-86		(a) Louis D'Souza (b) Francis D'Souza (c) Jerom D'Souza 2 Evelyia Pinto Bai Adkabali 3 Abbas Sahib & 9 Others	Allikan Sahib Korakumbala	0.01		
4	96-3	0-80		Sayed Hasan Sahib Gurukumbala		0.30		
5	121-6A	2.48		Kulsumbai	1. Allikan 2. Abdulkan 3. Usmankan	0.24		
6	161-2B	4.98		Shaik Yusuf & 2 Others	Nagama Bai w/o Appanna Gowda	0.70	2 Jackfruit trees 6 Mangoes 25 Cashewnut & Firewood	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	113-1	9.78	Frank A. Fernandez			0.48	2 Mango trees 4 Cashewnut trees
8	113-2	0.43	Poramboke Road			0.04	
9	113-3A	1.76	Maya Fernandez	Deago Rego		0.43	3 Cashewnut trees
10	112-1	0.41	Dooje (a) Philip D' Souza			0.01	10 Cashewnut Plants
11	112-2	0.18	Poramboke Road			0.01	
12	112-3	2.56	Dooje (A) Philip D'Souza			0.50	10 Cashewnut Plants.
13	148-1A1	8.46	Maya Fernandez			0.26	10 Cashewnut Plants
14	153	9.60	Maya Fernandez	Annu Gowda		0.40	15 Cashewnut Plants
				Alex D'souza			
				Frances Pinto			
				Pascal Pinto			
				Sebastion Pinto		2.95	
15	182	7.57	Maya Fernandez			0.47	
16	181	7.54	Maya Fernandez			1.10	
17	207-1	1.68	Marie Poojanthi			0.04	
18	207-2	4.80	Narayana Shetty				
			Chandaya Shetty	Jarappa Sapaliga		1.75	
19	207-3	2.65	Maya Fernandez			0.37	
20	98-2-C3	2.30	A.W.Land			0.10	
21	44-1	0.37	Narayana Shetty				
			Chandaya Shetty				
22	44-4A	2.58	Do.	Jarappa Sapaliga			
23	42-BC	0.94	Sesappa Shetty & 2 others			0.39	
24	45-1	1.13	A.W. Land			0.02	
25	45-15	1.78	Parameshwari	Somakke		0.45	
26	45-2-	0.15	Sharayu Ganapathy	Koraga Shetty		0.07	
27	45-11	0.13	Parameshwari	Somakke		0.13	
28	45-16	0.27	Sharayu Ganapathy	Koraga Shetty		0.15	
29	45-13	0.18	Kunju Hengau	Jalaja Shetty		0.01	
30	46-2A	0.27				0.22	
31	41-2	1.14	Mohan Rao	Rama Shivana		0.42	
32	41-1	1.09	Karanika	Somappa Shetty		0.23	
			Hanumantha				
33	46-2B	0.43				0.12	
34	39-1	4.12	Poramboke River			0.15	
35	38-2	1.58	Subraya Bhat			0.33	4 Ar 11 Coconut, 1 Jack fruit 4 Palmara Plant, 3 Coconut plants
36	38-3	0.43	Do.			0.04	1 Portion of the house, 1 Coconut 3 Ar., 1 Coconut Plant, 3 Ar. Plant 1 well
37	38-7	1.23	Do.			0.35	
38	38-8	0.52	Do.			0.03	1 Honnu Tree
39	38-9 A2	0.15	Ramchandra Bhat	B. Baba Gowda S/o Appu Gowda		0.01	
40	38-9B	0.54	Shrinivasa Bhat	Koraga Bhandary		0.42	1 Mango Tree
41	36-1	1.00	Subraya Bhat			0.04	
42	38-10A2	0.22	Ramachandra Bhat	B. Baba Gowda		0.02	1 Palmara Tree
43	38-10B	0.75	Shrinivasa Bhat	Koraga Bhandary		0.54	1 Coconut 2 Jackfruit 1 Cashewnut 1 Tamarind 2 Coco plants
44	222-1	0.38	Do.	Do.		0.07	1 Wild Jack 1 Jackfruit 2 Cashewnut 1 Mango plant house portion
45	222-2A	0.38	Ramakrishna Bhat	Laxmi Amma		0.29	7 Jackfruit 2 Mango 1 Wild Jack 4 Jungle wood

1	2	3	4	5	6	7
46	222-3A	0.24	Ramakrishna Bhat	Laxmi Amuna	0.18	
47	222-4A	0.60	Do.	Do.	0.32	
48	36-6A	0.32	Do.	Siddu Gowda	0.16	
49	36-6C	0.24	Do.	A & B Baba Gowda	0.06	1 Tiled-cattle shed portion & house portion
50	36-5B	0.20	Do.	A. Baba Gowda	0.13	
51	222-4B	1.18	Shrinivasa Bhat	Koraga Bhandary	0.02	
52	152-3A	2.78	Shridhara Bhat	Siddu Gowda	0.06	
53	152-3B	1.68	Ramakrishna Bhat	Laxmi Amuna	0.22	
54	185-1	0.50	Do.	Do.	0.10	
55	222-2B	1.87	Shrinivasa Bhat	Koraga Bhandary	0.45	1 Jackfruit 2 Mango
56	185.2	20.16	Robert A. Fernandes	Magdeline Cuvelo	0.03	1 Palmara Jungle wood Jungle wood, 4 kirai bogl
57	186	16.88	Do.	Seema Shetty Seema Shetty	0.65 2.50	4 Wild Jack, 2 Mango 4 Wild jack 42 Cashewnut trees 2 Mango Jungle wood
58	187-1	8.00	Do.	Paul Vas Paul Vas	1.00 1.75	6 Cashewnut trees Jungle wood 24 Cashewnut trees Jungle wood

**SCHEDULE OF LANDS PROPOSED FOR LAND ACQUISITION FOR THE PURPOSE OF LAYING PIPELINES OF
KUDREMUKH IRON ORE PROJECT IN VILLAGE BACHPE**

Taluk : Mangalore

District : South Kanara

Survey S.D. No.	Kissam	Entire Extent	Name of the Landlord	Name of the Tenant	Extent covers under Pipeline	Remarks (Improvement)
1	2	3	4	5	6	7
2-7	Wet	0.70	Duggamma Hengsu	Ramanna Alva	0.21	Paddy fields
5	Wet	0.78	Venkatesh Shet	Vittal Shetty	0.03	Do.
3	Wet	6.17	Achutha Shet	Susheela Alva	0.22	Do.
37-6	Wet	1.07	Venkamma & others	Monakka Hengsu (Employer)	0.45	Do.
5	Wet	0.75	Achutha Shet	Chennappa Surverna	0.07	Do.
3	Wet	2.21	Girija Hengsu Pade	..	0.37	Do.
4A		0.05	Ramachandra Shet & Achut	Chennaya Suverna	0.05	1 Tilled house,
4B		0.32	Do.	Do.	0.13	Paddy field
38-4		0.51	Parameshwari Shedthi	Narayana Shetty	0.15	100 Doopa trees, 1 Tamarind Tree
7		0.28	Lachu Shedthi	Do.	0.12	6 Mango tree and also fire-wood tree 1 Palmera, 1 Teakwood.
58-6	Wet	1.40	Lachu & Parameshwari Shedthi	Do.	0.40	Paddy field
39-1	Dry	3.72	Venkamma & others	Thumappa Shetty	0.35	Dry land (Vacant)
39-3	Dry	1.14	Lachu & Parameshwari Shedthi	Narayana Shetty	0.26	Do.
39-4	Dry	0.86	Korapalu Hengsu	1. Thumappa Shetty 2. Maire Hengsu & others	0.08 0.32	Do. Do.
148-1	Dry	1.09	Do.	Do. and others-5	0.13	Do.
148-3	Dry	1.62	Venkamma	Domodar Shetty	0.31	Do.
144-5C	Dry	0.40	Ratna Shedthi	Do.	0.35	Do.
144-5B	Dry	0.40	Devadas Shetty	..	0.26	Do.
144-5A	Dry	0.40	Raghuram Shetty	Mafisa. K.M.	0.13	1. Latret Building with granite foundation with R.C.C. columns.

1	2	3	4	5	6	7
144-2	Dry	0.90	Alphonso pinto	Dajepin Bai Khadar	0.01	Vacant
43-2	Dry	0.25	B. H. Mohamad & B.H. Abdul Khadar	..	0.15	Do.
	Dry	2.51	Do.	..	0.55	1. Well And Mango trees.
1A2	Dry	0.95	Alsamma	Dr. Gopinath Bhal	0.35	Do.
130-2D	Dry	0.83	Narasinga Rao	..	0.01	Mango tree.
143-2A	Dry	0.65	Dujit Mery Periera	Pascal Pereera	0.15	Vacant land.
-2B	Dry	0.25	Do.	John Fereera	0.03	Do.
-4	Dry	2.44	Edmand Gousalves	Modathen Bai	0.75	Do.
143-5	Dry	1.24	Edmand Gousalves	Modthen Bai	0.05	Vacant land.
44-1	Wet	2.12	Nagamma shedthi	John & pascal pereera	0.20	Paddy field.
3A	Wet	0.39	Do.	Do.	0.12	Do.
3B	Wet	0.19	Do.	Do.	0.14	Do.
48-1	Dry	4.14	Edmand Gousalves	Modthen Bai	0.50	Vacant.
-2A	Dry	3.08	Mohamed Sahed & others	Alli Saheb	0.06	Do.
47-1	Wet	7.16	Edmand Gousalves	Modthen Bai	0.61	Paddy field.
49-1D	Wet	1.42	Mohammad Saheb	Alli saheb	0.12	Do.
1C	Wet	2.18	Bubi Janabi	Karim Saheb	0.45	Do. 1 coconut plant
1B	Wet	1.57	Mohamed Saheb	Alli Saheb	0.30	Do.
1A	Wet	1.05	Bubi Janabi	Ruden Saheb	0.20	1 Well
151-2A3B1	Dry	..	Shnek Mohandr	Karim Saheb	0.01	Paddy field
				Do.	0.97	(Vacant) Cashew plantation.
31-3	Marsal D' Souza	0.50	Vacant land
50-3B	Dry	0.63	Shukanna		0.15	Do.
7A2	Dry		Rama Devadiga	..	0.30	Do.
7B	Dry	2.76	Kochappa	..	0.01	Do.
6B	Dry		Poseal pereera	Ravendra	0.65	Do.
178-2C	Dry	0.67	Do.	Do.	0.71	Do.
2A	Dry		Do.	Do.		
176-6A1	Dry	4.73	Bhavaln Rao	Paseal Broth	1.00	Vacant land
176-1C1A	Dry	20.53	Alfred Fernandez	Gracin Aroja Pai	1.10	Mango Plantation
1A		0.34	Do.	Do.	0.01	Do.
1B		0.76	Do.	Do.	0.16	Do.
95-8B	Dry	0.38	Poseal Ruthe	..	0.21	Mango Plantation
7D1	Dry	0.40	Do.	..	0.32	Teak Wood trees
7D2	Dry	0.89	Paul Rutho	..	0.27	Mango & Teak Wood
7A2	Dry	0.84	Mary Vecotrio pinto	..	0.10	Do.
98-5A6C	Dry	20.63	Monther sequera	..	0.45	Vacant.
7	Wet	0.93	Henry Manthra	..	0.75	Paddy fields
4A	Wet	1.95	Francy merard & others	..	0.03	Do.
98-5A3	Dry	0.11	Henry Manthro	..	0.03	Vacant land
5B	Wet	1.52	Do.	..	0.07	Do.
5A6D	Dry	8.75	Henry Manthro & others	Henry Manthero	0.20	Do.
4B	Dry	4.42	Peter D'Souza	Henry Manthero	1.75	Vacant land
101-1	Dry	0.90	Levuia Manthero	Do.	0.25	Do.
1A	Wet	0.40	Sumiti Bai	Do.	0.20	Coconut, Mango and Jack trees
105-3	Dry	10.05	St. Joseph church	Alphonse Moras	0.02	Vacant
1		1.13	Do.	Do.	0.55	Do.
2B	Wet	1.02	Dwelot father mullsa Institute, Mangalore	Monthu sequera	0.02	Paddy field
2C	Dry	4.69	Do.	..	0.92	Do.
105-1B2	Dry	5.47	St. Joseph church	..	0.50	Vacant
107-	Dry	13.04	Alfred J. Fernandez	Deyog Rego & others	0.87	Do.
108-4B	Dry	14.92	Bundansaheb	Haider Saheb	1.30	Do.
				Kanjar village		
1-2	Wet		Domakku Hengsu	..	0.30	Paddy field

NO. 66 KENJAR VILLAGE SCHEDULE OF LANDS TO BE PROPOSED FOR LAND ACQUISITION FOR THE PIPE LINES OF KUDREMUKH IRON ORE PROJECT IN MANGALORE TALUK SOUTH KANARA DISTRICT

Sl. No.	S. D. No.	Kissam	Entire Extent	Name of the land Owner	Name of the Tenant	Extent covers under pipe line	Improvements
1	2	3	4	5	6	7	8
133	10	Wet II	1.21	Palaraj Biary Abdul Kha-	Sheena Shetty	0.20	Paddy field
133	11	Wet I	0.31	dar Biary Abdul Khadri Biary	Sheena Shetty	0.27	Do.
	4	Wet I	4.82	1. Palaraj Biary 2. Abdual Kadri Biary 3. Bupathina	1. Sheena Shetty 2. Aithappa Shetty	0.85 0.15 1.00	Do. Do.
	5	Wet I	0.33	Palaraj Biary	Aithappa Shetty	0.24	Do.
	6	Wet I	0.69	Bupathama	Do.	0.16	Do.
					Sheena Shetty	0.25	Do.
	7	Wet I	1.76	Rama Vital Devaru (Pejavar Mutt)	Venkappa Shetty	0.31	Water Tank and Shed.
	12	Wet I	0.96	Bupathuma	Aithappa Shetty	0.35	Paddy field.
131	11	Wet I	0.78	Sri Rama Vital Devaru (Pejavar Mutt)	Rama Chandra Bhat	0.09	Do.
131		Garden	0.22	Srinivasraya Gundu Rao	Appanna Moolya	0.09	Portion of the house, Two coconut tree, 5 coconut, one mango tree, 1 jack tree.
	2	Wet III	2.49	Do.	Do.	0.02	
	24	Wet III		Do.	1. Appanna Moolya 2. Gundu Rao	0.58 0.27	
134	5	Wet II	4.25	Srinivasraya Gundu Rao	1. Appanna Moolya 2. Appayya Shetty 3. Muddu Shetty 4. Shivarama Shetty	0.03 0.12 0.21 0.25	Paddy field
						0.61	"
117	9	Wet II	3.54	Sri Rama Vittal Devaru	Nemu Shidhti	0.75	Paddy field.
	8	Wet II	0.17	(Pejavar Mutt)	Ramachandra Bhat	0.15	"
	7	Wet II	0.65	"	"	0.04	"
	6	Wet II	1.65	"	"	0.02	"
137	6	Wet II	0.34	Thomas D' Cruz	Narayana Moolya	0.06	"
	7	Wet II	1.14	"	"	0.42	"
	5	Wet II	0.89	B. Subbayya Shetty	Bhavaní W/o. Narayana Moolya	0.45	"
138	2C	Wet II	3.13	M. Pakcerabba	"	0.75	"
	7 A	Wet II	1.12	"	"	0.04	"
	2A	Wet II	0.62	"	"	0.31	"
145	5A	Wet II	0.82	P. Susheela Bai	Gopal Poojari	0.08	"
146	16	Wet II	1.09	Padmavathi	Sheena Molly	0.13	"
	13	Wet I	0.16	"	Ganapa Poojari	0.01	"
152	2	Wet II	1.77	Kallya mardhana krupa Devaru (Krishnapura Mutt)	Sesi Hengsu	0.09	"
	4	Wet II	1.55	Laxmi Narayana	Gundu Moolya	0.80	"
	6	Wet II	0.50	Padmavathi	Sheena Molly	0.19	"
					Gopal Poojari	0.04	"
	7	Wet II	0.75	Laxmi Narayana	Obala Poojari	0.08	"
					Krishnappa Moolya	0.23	"
						0.31	
	10	Wet II	0.73	Muthu Shedthi (Ganapa Shetty share holder)		0.01	Paddy field.

1	2	3	4	5	6	7	8
134	7	Wet II	2.63	Ammanna Kava	1. Narsi Hengsu 2. Kalyani Shetty 3. Thimappa Shetty 4. Damodar Rao.	0.02 0.07 0.10 0.33	Occupying under part- nership and (family property).
36	12	Wet III	2.79	Sanjeeva Rao	Savithri W/o. Lokayya	0.18	Paddy field .
	11 A	Wet I	0.80	"	Suvamma Babu Shetty	0.01	"
	11 B	Wet I	0.56	Balkrishna Rao	—	0.05	Nagabana
35	31	Dry	0.08	P. Sanjeeva Rao	Girija Shedthi	0.01	Paddy field
						00.2	Vacant place
	13	Wet III	0.75	P. Sanjeeva Rao	Girija Shedthi	0.22	Paddy field
					Kanthanna Shetty	0.01	"
	14	Dry	0.16	P. Sanjeeva Rao Vama Hengsu	Do.	0.16	Cashew plantation, Man- go tree 6, one jack tree
					Vama Hengsu	0.04	
	15	Dry	1.21	P. Sanjeeva Rao Vama Hengsu		0.08	Cashew plantation Teak wood plant 1 Banana plants.
	11	Wet III		P. Sanjeeva Rao M. S. Moosabba		0.38	1, cashew tree, portion of the above building.
					Kanthanna Shetty	0.18	Paddy field .
						0.56	
	8	Garden	0.13	P. Sanjeeva Rao	Do.	0.40	Paddy field
	16	Garden	0.06	Nahl Shetty	Do.	0.03	"
33g	3	Garden	0.17	Kanthappa Adappa		0.02	"
	10	Wet III	4.12	Kanthappa Adappa		0.13	"
	14	Wet III	0.45	Kanthappa Adappa		0.45	"
	12	Wet II	0.15	Kanthappa Adappa		0.15	"
	13	Garden	0.10	Thunkya Hengsu	Kanthappa Adapa	0.10	7 coconut trees, 1 arecanut, 3 jack tree, 1 irrigation well.
	1	Wet III	1.52	Chinnamma Shedthi		0.20	Paddy
155	5	Wet I	3.14	Muthu Shedthi	1. Doddayya Shetty 2. Sadashiva Shetty	0.45 0.09	Paddy field "
						0.54	
	6	Wet I	0.58	Ammanna Kava	Susheela Shedthi Vangl Sahadthi	0.23 0.18	Occupying under Partnership deed
156	1	Wet III	0.22	Krishnapura Mutt	Thaula poojari	0.02	
	3	Wet I	2.33	Do.	Do.	0.35	Paddy field, 5 coconut trees, 1 paltec, paddy field.
158	15	Wet III	2.33	Ammannakava	Balakrishna Rao	0.08	"
					Bogra kava (owner)	0.17	"
39	1	Wet I	2.55	Muthu Shetty Monappa (Share holder)		0.06	Paddy field .
38	9	Wet I	4.18	Ganapashetty Share holder Balakrishna Rao		0.24	Paddy field
					Balakrishna Rao	0.40	Paddy field 18 areca- nut tree, 2 jack tree.
					Maranna Shetty	0.54	
					Anthappa Bangera	0.51	Paddy field, 7 coconut tree 5 coconut plant.
38	8	Wet I	0.70	Balakrishna Rao		0.07	Paddy field .
	1	Garden	0.14	"	Maranna Shetty	0.04	4 coconut tree, 2 areca- nut tree, 6 coconut Plant
	3	Wet I	2.30	"	"	0.22	
	2	Wet I	0.95	Sanjeeva Rao (Patte stand in his name) Sanjeeva Poojari.		0.40	Paddy.

1	2	3	4	5	6	7	8
36	12	Wet III	2.79	Sanjeeva Rao Sanjeeva Rao	Lakayya Suvarna Babu Shetty	0.01 0.16 0.30	2 Coconut plant Paddy Paddy crop 1 planten garden 1, irrigation, well current pump set, 18 coconut tree, one mango tree.
31	18	Wet II	0.10	Srinivas Bhat	Saraswathi	0.04	Paddy crop two coco- nut tree.
	11	Wet II	0.52	"	"	0.02	Paddy crop
	17	Wet II	0.43	Vasudeva Bhat	"	0.05	"
	16	Garden	0.21	"	"	0.10	49 arecanut tree, one coconut tree, 1 mango tree half sight irri- gation well.
	12	Wet II	0.09	"	"	0.09	"
	5	Garden	0.11	Vasudeva Bhat	Monappa Moily	0.06	5 coconut tree, 2 coco- nut plant half sight irrigation well.
	4	Wet I	0.47	"	"	0.33	Paddy
	3	Garden	0.36	Ramayya Shetty	Kanthappa Adapa	0.25	23 cocenut tree, 18 co- conut plants, 6 areca- nut one naeelu tree, one jack tree, 2 mango tree, iraugeva tree, 3 teak wood 2.
29	6A	Wet III	0.42	Hamadu Biary	Kanthappa Adapa	0.31	Paddy crop
27	18	Wet III	0.64	Kanthappa Adapa	"	0.15	Paddy crop
	19	Wet III	0.25	Kanthappa Adapa	"	0.25	"
29	1	Wet I	5.77	Hamadu Biary	Kanthappa Adapa Nagappa Keshava	0.45	"
						1.70	21 coconut trees, 2 Gol, two Honne tree one mango tree.
	2	Wet III	0.33	Hamadu Biary	Nagappa Kaduva	0.02	Paddy

District : South Kanara

Village No. 62

Taluk : Mangalore

Name : Thekur

S.No.& S.D. No.	Kissam	Entire or portion	Extent to be acquired	Name of Registered Holder	Name of tenants or enjoyer	Plotwise extent to be acqui- red	Improvements	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77 2	Wet	Portion	0.35	162 Pakroji Bearj, Ligoti Bezmi Souza	1. Duming Rosary D' Souza 2. Koses D'Souza 3. Maraline D'Souza 4. Maggu Bal	0.05 0.10 0.10 0.10 0.35	Paddy field " " "	
77 3	Wet	Portion	0.03	180. Sundar Rao	Thyampanna Poojary	0.03	Paddy field	
76 6	Wet	Portion	0.13	168. Kathijabi Amina Rahi- man	Neo Veigas	0.13	"	
77 4	Wet	Portion	0.51	Do.	Ramappa Suvarna	0.51	"	
77 5	Wet	Portion	0.05	180. Sundar Rao	Thyampanna Poojary	0.05	"	
79 1A	Wet	Portion	0.20	165. Kathijabi Amina Rahi- man	Sanjeeva Poojary	0.20	"	
79 15	Wet	Portion	0.01	165. Kathijabi Amina Rahi- man	Secna Poojary	0.01	"	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	13	Wet	Portion	0-02	67, P. Sanjeeva Rao	1. Cristin Veigas & John Veigas	0.02	2 coconut trees, 25 banana trees.	
95	15	Wet	Portion	0-30	86, Thomas Veigas	1. Louies D'souza S/o Modlin D'souza	0.10	Chilly cultivation	
						2. Jerom D'souza S/o Jhon D'souza.	0.20	Sugar cane.	
							0.30		
96	2	Wet	Portion	0.57	B. Venkappaiya	1. Marul labo	0.42	Sugar cane & paddy field.	
						2. Smt. Alice Souza W/o Bajil Souza	0.15	Sugar cane	
							0.57		
96	6	Wet	Portion	0-46	85. B. Venkappayya	1. Geogori Fereo S/o Kashmir	0.16	3 coconut trees, 3 coco plant sugar cane cultivation.	
						2. Alex Fereo S/o Kashmir	0.06	Paddy field	
						3. Rosario Fereo S/o Kashmir.	0.18		
						4. Clifred Ferndious S/o Geogori.			
						5. Avrultin Fereo.	0.06	Sugar cane cultivation	
							0.46		
97	1	Wet	Portion	0-31	77. S. K. Official Receiver etc.	1. Neo D'Souza S/o Rosario D'Souza.	0.11	Paddy field, one coconut tree, one fire wood tree.	
						2. Jerja D'souza W/o Pilip D'Souza,	0.09	Paddy field, two coconut trees.	
						3. Leo D'Souza S/o Jerom D'Souza.	0.10	Paddy field.	
						4. Teresa Kowelli W/o Reffel D'souza.	0.01	Paddy field, one coconut tree.	
							0.31		
103	12A	Wet	Entire	0-03	124. Reffel D'souza	1. Tereza Kowello & Jerza D'souza.	0.03	Sugar cane	
103	11A	Wet	Portion	0-02	124.	1. Tereza Kowello & Jerza D'souza.	0.02	Two coconut trees.	
103	11B	Wet	Portion	0-01	59. Neo D'souza.	1. Neo D'souza S/o Rosari D'souza.	0.01		
103	12B	Wet	Portion	0-09	58. Forcein Kowello Bai.	Kalistha D'souza & Leo D'souza.	0.09	8 coconut tree, Veg. cultivation one fire wood tree.	
103	10	Wet	Portion	0-02	13. Narua Poojary	Taravathi & Sanjeeva Bangi (claimants)	0.02	One coconut tree.	
89	3	Wet	Portion	0-07	72. Basuru Shankar Rao	Taravathi and Sanjeeva Bangi (claimants)	0.07	Vegetable cultivation.	
89	7	Wet	Portion	0-66	72.	1. " 2. Voovayya Poojary 3. Poovamma 4. Taravathi & Sanjeeva Bangi.	0.25 0.04 0.02 0.35	Vegetable cultivation. Sugar cane. Paddy field, four coconut trees.	
							0.66		
89	5	Garden	Portion	0-02	72. Basuru Shankar Rao etc.	1. Sanjeeva Bangi & Toravathi	0.02	3 coconut tree, one fire wood tree.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	2	Wet	Portion	0-16	69, P. Prabhakar Rao etc.	1. Ruddumilla Veigas 2. Norbert D'souza 3. Silvester D'souza	0.10 0.04 0.02 <u>0.16</u>	12 coconut trees Vegetable Do.
92	3	Garden	Portion	0-01	230. Bonthias Ferom etc.	1. Ruddumilla Veigas	0.01	Two coconut trees.
92	1	Wet	Portion	0-06	230. „	1. Ruddumilla Veigas 2. Byptist Fereo 3. Jerom D'souza S/o John D'souza	0.45 0.01 0.05 <u>0.60</u>	Paddy field, 9 coconut trees, one Tall tree (palm) Paddy field. Paddy field.
78	6	Wet	Portion	0-01	70 Kukmini	1. Raju Shetty	0.01	Sugar cane cultivation
100	1A	Poromboke	Portion	0-24	River		0.24	River

District : South Kanara

Village : No. 53. Baikampadi

Taluk : Mangalore.

S. No. & S.D. No.	Kissam	Entire or Extent portion	Name of the Redg. Holder	Name of the Tenant	Extent to be acquired	Improvements	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	Wet	Portion	1.10	Lord Bishop of Mangalore	Silvester Vegas S/o Bejmy Vegas, Baikampady. Norbert Souza, S/o. Paul Souza, Baikampady. Pauline Bai, W/o. Arbas Souza, Baikampady. Hoovappa Poojary, S/o. Bada Poojary, Baikampady. Babina Cruz, S/o. Kistu Cruz. Baikampady.	0.48 0.09 0.03 0.47 0.03 <u>1.10</u>	Paddy field Paddy field Paddy field. Paddy field. Paddy field.
2.5	Wet	Portion	0.38	Louis Rodricks Bai	Neelaya Poojary, S/o Doomappa Poojary Biakampady., Jelphine Vegas, W/o Devic D'souza, Baikampady	0.23 0.15 0.38 <u>0.76</u>	Paddy field. Paddy field Palmairah tree—2 Coconut plants—4 Coconut tree (yielding)—1

SCHEDULE OF LANDS PROPOSED TO BE ACQUIRED FOR THE PURPOSE OF LAYING THE SLURRY PIPELINE FROM MALLESWARA (KUDREMUKH) TO NEW MANGALORE PORT AT PANAMBUR FOR KUDREMUKH IRON ORE PROJECT

Name of the District : South Kanara

Name of the Taluk : Mangalore

Name of the Village : Panambur

Sl. No.	Field/survey Number	Sub Div. Nos.	Classification of land	Total area of the sub Div.	Name of the Registered Holder (Pattadar)	Name of the Tenant	Extent of the survey No. to be acquired	Details of the plots to be acquired	Remarks
1	2	12	Wet	1-24	Already acquired by the State Government for the purpose of Industrial Development area.		0.40		The plots bearing serial Nos. 1 to 36 have already been acquired by the State Govt. for the purpose of Industrial Development area. The Land bearing serial No. 37 and survey No. 23/AIA is old. PWD road now merged with new National Highway No. 17. Hence, further acquisition of these lands does not arise.
2	2	11	Wet	1-06			0.28		
3	2	9	Wet	2-78			0.22		
4	3	18	Wet	0.47			0.44		
5	3	17	Wet	0.92			0.50		
6	3	13	Wet	0.66			0.42		
7	4	5	Garden	0-51			0.30		
8	4	6	Wet	1-03			0.23		
9	4	7	Wet	1-01			0.58		
10	4	8	Wet	0-33			0.26		
11	4	9	Wet	0-31			0.08		
12	4	13	Wet	0-56			0.58		
13	4	12	Wet	0-66			0.02		
14	8	11A	Wet	0-94			0.42		
15	8	9	Wet	0-33			0.01		
16	8	11/B	Wet	0-84			0.39		
17	8	7	Wet	0-93			0.32		
18	8	12	Wet	0-80			0.18		
19	8	13	Garden	0-26			0.14		
20	8	15	Wet	0-94			0.25		
21	8	14	Wet	1-88			0.40		
22	9	1	Wet	4-62			1.03		
23	9	3	Wet	3-25			0.35		
24	9	8	Garden	0-16			0.11		
25	9	7	Garden	0-16			0.15		
26	9	6	Wet	1-82			0.46		
27	10	1A	Wet	7-10			1.80		
28	12	9	Wet	0-88			0.44		
29	12	10	Wet	0-68			0.04		
30	11	8	Wet	0-38			0.15		
31	11	17	Por.	0-02			0.01		
32	11	9	Dry	0-21			0.13		
33	74	7A2	Wet	0-11			0.03		
34	74	7A1B	P.Bok	0-13			0.07		
35	74	7A1C					0.07		
36	74	7A1A	Wet	0-81			0.40		
37	23	1A1A	Road	1-84			0.12		

Old P.W.D. Road merged with
New West Coast Road.

Sd/

Taluk Surveyor,
Mangalore

2-3-1977

[No. 4(3)/76-KDMII]

S.D. PRASAD, Addl. Secy.